

दावा

सम्पादक - दीपक कुमार बुद्धदेव

वर्ष - 43

अंक - 176

राजनादावा, सोमवार 13 मई 2024

पृष्ठ - 8

मूल्य - 4.00 रुपए

पीएम मोदी का रोड शो खत्म, रथ पर सवार सीएम नीतीश के हाथ में कमल का चिह्न; उमड़ी भीड़

पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए पूरा पटना रविवार की शाम सड़कों पर उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भद्राचार्य रोड से शुरू हुआ। उसके पहले ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे प्रधानमंत्री का इंतजार करते रहे। रोड शो में केवल लोग ही लोग नजर आए। पटना की सड़कों से जब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रोड शो गुजरा तो पूरा पटना 'मोदी जिंदाबाद' के नारों और 'जो राम को लाए है, हम उनको लाएंगे' जैसे गीतों से गुंजायमान हो गया।



पीएम मोदी का रोड पीर मोहनी, कदमकुआं, ठाकुरबाड़ी रोड, बाकरगंज की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान पीएम मोदी के रथ पर सवार सीएम नीतीश के हाथ में कमल फूल का चुनाव चिह्न दिखा।

हट तरफ दिखा जनसैलाब

प्रधानमंत्री मोदी जिस खुले वाहन में सवार थे, उसमें उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद के हाथ में कमल के फूल का कटआउट था। इस रोड शो को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हर तरफ जनसैलाब नजर आ रहा था। कहीं नृत्य चल रहा था तो कहीं लोग 'मोदी-मोदी' के नारे लगा रहे थे। इस रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई, फिर भी लोग सड़कों पर उत्साहित नजर आए।

सीएम नीतीश सहमार के हाथ में भी कमल चुनाव चिह्न

पीएम मोदी का रोड पीर मोहनी, कदमकुआं, ठाकुरबाड़ी रोड, बाकरगंज की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान पीएम मोदी के रथ पर सवार सीएम नीतीश के हाथ में कमल फूल का चुनाव चिह्न दिखा।

पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया रोड शो

पटना के लिए यह पहला मौका है, जब किसी प्रधानमंत्री ने यहां रोड शो किया। ऐसे में हर कोई प्रधानमंत्री मोदी

पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे वापस लेगे- अमित शाह

कौशांबी (यूपी)। केंद्रीय गृह परमाणु बम है। हम क्यों करें मंत्री अमित शाह ने रविवार को पाकिस्तान का सम्मान। उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और नेशनल कॉमिन्स प्रमुख फारूक अन्वुल्ला की पाकिस्तान को लेकर की गयी टिप्पणी के लिए उन पर निशाना साधा और कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) भारत का हिस्सा है और इसे वापस लेते।



कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीओके मत मांगो। राहुल बाबा, अगर आपको परमाणु बम से डरना है तो डरो रहो। हम डरने वाले नहीं हैं, पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। श्री शाह ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कहते हैं कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों को कश्मीर से क्या लेना-देना है। शायद उन्हें नहीं पता कि कौशांबी का हर बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि 70 साल (शेष पृष्ठ 6 पर...)

भाजपा अगले 10 वर्ष में भी ओडिशा के लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती : नवीन

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजू जनता दल (बीजद) सरकार के जाने की उलटी गिनती शुरू होने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का जोरदार खंडन करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अगले 10 वर्ष में भी राज्य के लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती।



श्री मोदी ने शनिवार को कंधमाल, बोलांगीर और बारगढ़ में अपनी चुनावी सभाओं के दौरान श्री पटनायक पर तीखा हमला किया और उन पर राज्य सरकार में ऐसे व्यक्ति को आउटसोर्स करने का आरोप लगाया, जिसे ओडिशा संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ओडिशा में उर्ध्वीय संस्कृति और गौरव खरने में है तथा राज्य अपने समृद्ध प्राकृतिक और खनिज संसाधनों के बावजूद श्री पटनायक के 25 साल के शासन के दौरान विकास में पिछड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इन

मणिपुर में हिंसा से पहले विहित किए गए थे 2480 अवैध प्रवासी, सीएम एन बीरिन सिंह बोले - सबसे ज्यादा 1,165 चंदेल में मिले

इफाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरिन सिंह ने रविवार को बताया कि गत वर्ष पूर्वोत्तर राज्य में 2480 अवैध प्रवासियों को चिह्नित किया गया था। हालांकि गत तीन मई को हिंसा शुरू होने के बाद उन्हें निवासित करने का अभियान बंद कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने अवैध प्रवासियों द्वारा जंगल को काटने और नए गांवों के निर्माण पर चिंता जाहिर की। पत्रकार वार्ता में सिंह ने कहा कि गत फरवरी 2023 में कुकी समुदायों के दो मंत्रियों लेतपाओ हाओकिप एव नेमछा किपेन के मौजूदगी में आयोजित कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट उच्च समिति बनाई गई थी। अवैध प्रवासियों को चिह्नित करने के लिए बनाई गई उपसमिति का प्रमुख हाओकिप को बनाया गया था। वायोमीटिक लिए जाने के दौरान चंदेल के दस गांवों में 1165, तैनापोल जिले के 13 गांवों में 1147, चूडचंदपुर में 154 और अन्य प्रवासी कामजों जिले में मिले थे। हालांकि, इस आंकड़े में कामजों जिले में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त 5457 अवैध प्रवासी शामिल नहीं हैं। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

लोकसभा की 96, आंध्रप्रदेश, ओडिशा वि.स. की 203 सीटों पर चौथे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी



नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने कहा है कि लोक सभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को 10 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 96 संसदीय सीटों पर सुचारु रूप से मतदान कराने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। चौथे चरण में आंध्रप्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की आठ-आठ, बिहार की पांच, ओडिशा तथा झारखंड की चार-चार और केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एक सीट पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण के चुनाव में मोदी सरकार के पांच बड़े मंत्रियों, एक पूर्व मुख्यमंत्री, दो क्रिकेटर और एक अभिनेता समेत कई दिग्गज राजनेताओं की किस्मत तय होगी। आंध्रप्रदेश में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। वहां भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन किया है। तेलंगाना के हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की माधवी लता, बिहार के नेगुसराय से गिरिज सिंह, उज्जैनपुर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, हैदराबाद से एआईएमआईएम के असदुद्दीन औवेसी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से कन्नड़ राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, गुराज से समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, मुंबई से जदयू के पूर्व (शेष पृष्ठ 6 पर...)

संकेतसय तक नीचे या ऊपर रहने का अनुमान है। फिर भी गर्मी में मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर शामियानों की छंव, पीने के पानी और पंखों आदि के प्रबंध किए गए हैं। चौथे चरण में आंध्रप्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की आठ-आठ, बिहार की पांच, ओडिशा तथा झारखंड की चार-चार और केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एक सीट पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण के चुनाव में मोदी सरकार के पांच बड़े मंत्रियों, एक पूर्व मुख्यमंत्री, दो क्रिकेटर और एक अभिनेता समेत कई दिग्गज राजनेताओं की किस्मत तय होगी। आंध्रप्रदेश में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। वहां भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन किया है। तेलंगाना के हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की माधवी लता, बिहार के नेगुसराय से गिरिज सिंह, उज्जैनपुर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, हैदराबाद से एआईएमआईएम के असदुद्दीन औवेसी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से कन्नड़ राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, गुराज से समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, मुंबई से जदयू के पूर्व (शेष पृष्ठ 6 पर...)

दिल्ली-यूपी में आंधी, बिहार से लेकर बंगाल तक में भारी बारिश... लू की चपेट में रहेंगे ये राज्य; आईएमडी का अलर्ट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है। तपती दोपहर में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं रात के समय भी तापमान बढ़ने से लोग बेचैन हैं। वहीं, अब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान, दक्षिण ओडिशा, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, केरल, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश के तलहटी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटे) चलने की उम्मीद जलाई है। वहीं, पश्चिमी हिमालय के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ छिटपुट बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वांचल भारत, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,



रविवार को राजस्थान के विभिन्न जिलों में गरज के साथ बारिश होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने रविवार को कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। इसमें कहा गया है कि राजसमंद के देवगढ़ में सबसे अधिक 42 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस बारिश से राज्य में भीषण तापमान से कुछ राहत मिली। केंद्र ने कहा कि तृपान की गतिविधियां 14 मई तक जारी रहने की संभावना है। राजस्थान में 12 मई को धूल भरी आंधी और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। एक आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार, जयपुर में मौसम केंद्र ने अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, (शेष पृष्ठ 6 पर...)

लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम हवाएं संभव हैं। इसके अलावा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में छिटपुट धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें संभव हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों में गरज के साथ बारिश

नेताओं की सदेशखाली में महिलाओं ने पिटाई, फाड़ दिए कपड़े



सदेशखाली। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में सदेशखाली एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सदेशखाली में जारी तनाव के बीच रविवार को महिलाओं ने टीएमपी सी नेताओं को पीट दिया। इन नेताओं की इतनी पिटाई की कि इनके कपड़े तक फट गए। टीएमपी सी नेताओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीएमपी सी नेता सुकुमार महतो ने कहा कि



सदेशखाली महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करने के लिए हम एक बैठक करने में सक्षम हुए हैं। बीजेपी ने जिस तरह से उनके खिलाफ साजिश रची, उसके खिलाफ महिलाएं विरोध कर रही हैं। आपने यह भी देखा है कि आज दिलीप मलिक पर कैसे हमला किया गया। यह अस्वीकार्य है। राजनीति में एक पार्टी को दूसरे की सभाओं और रैलियों में मदद करनी चाहिए।

जानबूझकर वायरल किया पिटाई का वीडियो- टीएमपी

महतो ने आगे कहा कि हम जीतेंगे इसलिए बीजेपी इसे पचा नहीं पा रही है। हमने कहा है कि अगर सदेशखाली के लोग गलत हैं, अगर सदेशखाली की महिलाएं दिलीप मलिक को मारती हैं, तो हम उन्हें समझाएंगे। उन्होंने साजिश रचकर ये सब किया, इसलिए वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने लोगों से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कए और तुष्कर्म की घटना की पटकथा लिखी। बीजेपी सदेशखाली की जनता को 2000 रुपये देकर अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। ये बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टी के लिए एक गंदी साजिश है। इसके बदले सभा में जुटे करीब तीन-चार हजार लोगों को पिटाई कर दी गयी।

दिल्ली एयरपोर्ट सहित कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी, सर्व ऑपरेशन के लिए पहुंची पुलिस



नई दिल्ली। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकियां मिलने के कुछ दिन बाद अब दिल्ली एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गयी है। इसके साथ ही कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ई-मेल में दी गई धमकी बुराई अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल को दी गई है। धमकी भरे ई-मेल के बाद सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ दी गयी है। पुलिस मौके पर पहुंच गयी है और जांच अभियान जारी है। गोरतलब है कि पिछले सप्ताह दिल्ली और गुजरात के अहमदाबाद के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जो अफवाह निकली थी। ये ईमेल 2

मई को दिल्ली के 131 स्कूलों, गुरग्राम के पांच और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तीन स्कूलों को भेजे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूलों को एक ही आईपी पते से ईमेल प्राप्त हुए थे, जो संभवतः वीपीएन कनेक्शन का उपयोग करके छुपाया गया था। संभावना जतायी जा रही है कि यह संभवतः रूसी खोमैन जेनेरेट किया गया था। अपराधियों ने अरबी शब्द 'सवारीम' का इस्तेमाल किया था, जिसका अर्थ तलवारों का टकराव है और यह आईएसआईएस के प्रचार से जुड़ा है। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

पांचवें चरण में गंभीर आपराधिक मामले वाले 19 प्रत्याशी, कुल 20 करोड़पति हैं उम्मीदवार; 44 मात्र पांचवीं से दसवीं पास



कोलकाता। लोकसभा (लोकस) चुनाव के पांचवें चरण में बंगाल की सात सीटों पर कुल 88 प्रत्याशी हैं, जिनमें 21 के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 19 के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले हैं। ऐसे प्रत्याशियों में तृणमूल कांग्रेस के दो, भाजपा के पांच व माकपा के दो शामिल हैं। पांचवें चरण में कुल 20 करोड़पति प्रत्याशी हैं। इनमें तृणमूल के छह, भाजपा के पांच और माकपा व कांग्रेस का एक-एक प्रत्याशी है। बाकी निर्दलीय व अन्य राजनीतिक दलों के हैं। हुगली लोस सीट से तृणमूल प्रत्याशी बांग्ला फिल्म अभिनेत्री रचना बनर्जी बंगाल में पांचवें चरण में सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। उनकी कुल संपत्ति 35 करोड़



रुपये से अधिक की है। कल्याण बनर्जी दूसरे सबसे अमीर प्रत्याशी श्रीरामपुर से तृणमूल प्रत्याशी कल्याण बनर्जी दूसरे सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। उनकी कुल संपत्ति 30 करोड़ से अधिक की है। तीसरे

स्थान पर बनगांव से निर्दलीय प्रत्याशी सुमिता पोद्दार हैं, जिनकी कुल संपत्ति 22 करोड़ से अधिक की बताई है। 44 प्रत्याशियों ने मात्र पांचवीं से दसवीं तक की पढ़ाई की है। 38 की शिक्षक योग्यता स्नातक व उससे अधिक है। चार ने डिप्लोमा किया है जबकि दो ने खुद को सिर्फ साक्षर बताया है। 17 प्रत्याशियों की उम्र 25 से 40 के बीच है। 54 की उम्र 41 से 60 के बीच है। 17 प्रत्याशी 61 से 80 के बीच के हैं। पांचवें चरण में कुल महिला प्रत्याशियों की संख्या 14 है। इस चरण में आगामी 20 मई को बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलबेड़िया, श्रीरामपुर, हुगली व आरामबाग सीटों पर वोट पड़ेंगे।

मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में से 6 आतंकी लाखों के इनामी, बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद



बीजापुर। गंगलूर के पीडिया बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के जंगल में मारे गए सभी 12 नक्सलियों के शव शनिवार को बीजापुर लाए गए। सभी मृत नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। पुलिस के मुताबिक 12 में से 6 नक्सलियों पर 31 लाख का इनाम घोषित है। जानकारी मिल रही है कि तीन दिनों में नौ अलग-अलग स्थानों पर फोर्स की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। घटनास्थल में तीन घायल नक्सलियों को भी फोर्स ने गिरफ्तार किया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। घटनास्थल पर पुलिस ने 12 बोर की 12 बंदूकें, कारतूस और

ब्रामद हुई है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि मुठभेड़ के दौरान ज्यादातर नक्सलियों ने फोर्स की बंदी रह गयी थी। पुलिस के मुताबिक पीडिया के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की लंबे समय से खबर मिल रही थी। इस बीच दत्तेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले से डीआरजी, एसटीएफ, कोबार्, सीआरपीएफ और बस्तर फाइटर के 1200 से अधिक जवान रवाना किए गए थे। इस बीच फोर्स जंगल में नक्सलियों की सर्चिंग में लगी हुई थी। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

सबसे गर्म रहा राजनांदगांव.... फिर से बन रहे बारिश के आसार

राजनांदगांव (दावा)। अभी हवा-तूफान के साथ बारिश होने का कल्ला कटा नहीं है। आज कल में अच्छी बारिश हो सकती है। वैसे रविवार दोपहर को हल्की बूंदबांदी हुई। बादलों में गड़गड़ाहट होती रही। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि द्रोणिका का असर बजने से मौसम फिर से बदलने वाला है। हवा-तूफान के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है।

बता दें कि अक्षय तृतीया के दो दिन पहले हवा-तूफान के साथ अच्छी बारिश हुई थी। उसके बाद लोगों ने अनुमान लगा



लिया था कि अक्षय तृतीया के दिन थोड़ी-बहुत बारिश तो जरूर होगी लेकिन एक बूंद बारिश नहीं हुई जबकि अक्षय तृतीया के दिन हल्की फुल्की बारिश होना तय माना जाता था। अक्षय तृतीया मनाते के तीसरे दिन रविवार को बारिश पानी के आसार बने रहे। दोपहर में थोड़ी बूंद बांदी हुई लेकिन बारिश नहीं हो पाई। हालांकि एक बार फिर

मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उत्तरी दिशा में स्थित एक द्रोणिका की वजह से हल्की बारिश के साथ अंधड़ चलने की संभावना जताई जा रही है।

गर्म रहा राजनांदगांव

बता दें कि अक्षय तृतीया के दो दिन पहले हवा-तूफान के साथ हुई बारिश के

बाद वातावरण गर्म बना रहा। तेज धूप व भीषण गर्मी का आलम बने रहने से लोग पसीने से तरबतर रहे। इन दिनों राजनांदगांव का तापमान रायपुर, बिलासपुर, बालोद आदि की तरह सर्वाधिक गर्म बना रहा। तापमान का पार 40.5 डिग्री सेन्टीग्रेड रहा। जबकि पिछले दिनों बारिश होने पर तापमान का पार 25.6 डिग्री सेन्टीग्रेड पर आ गया था। अब मौसम विभाग ने गर्मी को देखते हुए यलो एलर्ट की वार्निंग जारी कर दी है। वहीं कल सोमवार के लिए सूचना जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ ब्रजपात होने व अंधड़ चलने की संभावना है। आसमान आंशिक मेघमय रहने तथा गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा होने के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान 41 डिग्री सेन्टीग्रेड व 26 डिग्री सेन्टीग्रेड के आसपास रह सकती है।

यमुनोत्री धाम में भक्तों की भीड़ देख पुलिस प्रशासन के हाथ-पांव फूले, श्रद्धालुओं से कहा-स्थगित करें यात्रा

उत्तरकाशी (आरएनएस)। 12 मई यानी कि आज श्रद्धालुओं के लिए बदीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इस मौके पर बदीनाथ धाम के रावल और बदरी पांडुकेश्वर बदीनाथ धाम में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को देख पुलिस-प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। वहीं उत्तरकाशी पुलिस ने भक्तों की तादात को देखते हुए आज की यमुनोत्री यात्रा स्थगित करने की अपील की है।

यमुनोत्री मार्ग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें धाम की ओर जाने वाले पहाड़ी मार्ग पर भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु दिख रहे हैं। बता दें कि 10 मई अक्षय तृतीया के दिन चार घण्टा यात्रा शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहले ही दिन करीब 32 हजार श्रद्धालु पहुंचे। वहीं आज यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद भी भारी से अधिक संख्या में श्रद्धालु



पहुंच रहे हैं। इतनी तादात में भक्तों की भीड़ देख पुलिस-प्रशासन के माथे पर चिंता के पसीने बह रहे हैं। सोशल मीडिया पर यमुनोत्री मार्ग का एक वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो में दर्शन करने को लेकर भक्तों का उत्साह साफ देखा जा रहा है और श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा नजारा देख उत्तरकाशी पुलिस ने आज

यमुनोत्री यात्रा स्थगित करने की अपील की है। पुलिस ने टवीट कर लिखा है कि आज श्री यमुनोत्री धाम पर क्षमता के अनुसार पर्याप्त श्रद्धालु यात्रा के लिये पहुंच चुके हैं। अब और अधिक श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा है। जो भी श्रद्धालु आज यमुनोत्री यात्रा पर आने जा रहे हैं, उनसे विनम्र अपील है कि आज यमुनोत्री जी की यात्रा स्थगित करें।

पहला कॉलम... खेल के साथ शिक्षा को बढ़ावा देना है जरूरी - उज्जवल



राजनांदगांव (दावा)। राजनांदगांव के वार्ड न.22 रेवाडीह में छत्तीसगढ़ युवा संघ रेवाडीह के युवा साथियों द्वारा आयोजित रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता में बतौर अतिथि शामिल हुए भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री उज्जवल कसेर ने उपस्थित खिलाड़ियों व वार्डवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों के आयोजन से क्षेत्र में अच्छा वातावरण निर्मित होता है, लेकिन समाज, क्षेत्र और देश के विकास के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, उन्होंने सभी पालकों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को खेल के साथ शिक्षा ग्रहण करने सदैव प्रेरित करें, जिससे हम देश की नींव मजबूत कर सकें। उक्त आयोजन में पार्षद गणेश नेताम, अनिल कौशिक, सूर्यकांत श्रीवास्तव, सुरेंद्र मांडवी, नीलकण्ठ मांडवी, पन्, लक्ष्मी, राजाराम सहित अधिक संख्या में आयोजनकर्ता व वार्डवासी उपस्थित रहे।

हजरत सैय्यद जलालुद्दीन शाह का 47वां उर्स 15 से 18 मई तक मनाया जाएगा

राजनांदगांव (दावा)। राजनांदगांव के पारिनाला स्थित दरगाह शरीफ हजरत सैय्यद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का 47वां उर्स काफी हॉल्लास एवं ऐतिहासिक रूप से मनाया जा रहा है। जलालबाग उर्स इंतजामिया कमेटी ने बताया कि सभी धर्मावलंबियों के अटूट आस्था के प्रमुख स्थान पारिनाला दरगाह के इस 47वें उर्स को यादगार बनाने के लिए समिति के सभी सदस्य एवं शहर की धर्म प्रेमी जनता के विशेष प्रयासों से इस वर्ष यह आयोजन चार दिवसीय रखा गया है, जिसके अंतर्गत 15 मई दिन बुधवार को कुरानखाना बाद नमाज फजर परचम अहमद रजवी साहब व शहर के आहम्मा शीकत के साथ शाही संदल जिसमें इंटरनेशनल नात खा शब्बीर रजा बरकती, सुल्तान रजा कादरी, फैज रजा कादरी के साथ जुलूस



निकाला जाएगा। 17 मई बाद नमाज ईशा दरगाह शरीफ में नातखाना का प्रोग्राम जिसमें हबीबुल्लाह जिगर साहब झारखंड व कारी यासीन अख्तर साहब नागपुर शामिल होंगे। 18 मई दिन शनिवार तकरीर हजरत मौलाना सगीर अहमद रजवी साहब व शहर के आहम्मा शीकत के साथ शाही संदल जिसमें इंटरनेशनल नात खा शब्बीर रजा बरकती, सुल्तान रजा कादरी, फैज रजा कादरी के साथ जुलूस

गरिमामयी एवं यादगार बनाने के लिए उर्स कमेटी के सभी सदस्य तन-मन-धन से राजनांदगांव की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत के मद्देनजर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए शहर की जनता से एवं सभी धर्म प्रेमी जनता से इन चार दिवसीय आयोजन का शामिल होकर फैजान से मालामाल हो इसके लिए विशेष निवेदन भी किया जा रहा है, इसमें इंतजामिया कमेटी के सदर व सदस्य हाजी मंसूर अंसारी व हाजी रज्जक बडगुजर, रशीद खान, हाजी तनवीर अहमद, हाजी जलालुद्दीन निबान, अब्दुल कादिर अशरफी, शेख नईम कुरैशी, सुहेल रिजवी, शकील रिजवी, राजिक खान राजा, हफीज वारसी, शेख सलीम, शानु खां, रेहान कुरैशी ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने अपील की है। उक्त जानकारी कमेटी के सदस्य आफताब अहमद ने दी।

आदि गुरु शंकराचार्य के जयंती समारोह में हुए शामिल उपमुख्यमंत्री अरुण साव



रायपुर। दुनिया में सनातन के मान सम्मान का सबसे बड़ा योगदान आदि गुरु शंकराचार्य का है। 8 वर्ष की उम्र में ही उन्हें सभी वेदों का ज्ञान हो गया था, और उसके बाद उन्होंने पूरे देश का भ्रमण कर चार पीठों की स्थापना की। ये वो दौर है जिसमें वास्तव में सनातन का पुनरुद्धार हुआ था। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने ये बातें रविवार को रायपुर के शहीद स्मारक में छत्तीसगढ़ सनातन दर्शनमा गोस्वामी समाज द्वारा आयोजित आदि गुरु शंकराचार्य जयंती कार्यक्रम में कही। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने आगे कहा कि, मुलाओं और अधीशों की गुलामी के समय सनातन के तेज में जो कमी आई थी, वो 22 जनवरी 2024 को दूर हुई।

अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद दुनिया में एक बार फिर सनातन का उका बजा। उन्होंने कहा कि हम सबको सनातन पर विचार करने की आवश्यकता है। आज जब हम आदि गुरु शंकराचार्य का अवतरण दिवस मना रहे हैं, उन्होंने जिन उद्देश्यों को लेकर अपने जीवन को समर्पित किया। पूरे देश का भ्रमण किया। आज उनके किए हुए काम को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज सनातन का जो स्वरूप होना चाहिए था, आदि गुरु शंकराचार्य सनातन का जैसा स्वरूप चाहते थे, वह स्वरूप आज भी नहीं आया है, इसलिए उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना पड़ेगा।

अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद दुनिया में एक बार फिर सनातन का उका बजा। उन्होंने कहा कि हम सबको सनातन पर विचार करने की आवश्यकता है। आज जब हम आदि गुरु शंकराचार्य का अवतरण दिवस मना रहे हैं, उन्होंने जिन उद्देश्यों को लेकर अपने जीवन को समर्पित किया। पूरे देश का भ्रमण किया। आज उनके किए हुए काम को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज सनातन का जो स्वरूप होना चाहिए था, आदि गुरु शंकराचार्य सनातन का जैसा स्वरूप चाहते थे, वह स्वरूप आज भी नहीं आया है, इसलिए उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना पड़ेगा।

दिल्ली वालों की मुफ्त बिजली-पानी रोकना चाहती है भाजपा:केजरीवाल

नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वह दोबारा जेल गये तो भाजपा वाले लोगों की मुफ्त बिजली-पानी रोक देंगे और सरकारी स्कूल-अस्पताल खराब कर देंगे।

श्री केजरीवाल ने रविवार को नई दिल्ली सीट से इंडिया गठबंधन के 'आप' प्रत्याशी सोमनाथ भारती और दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी महाबल मिश्रा के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपके लिए अच्छे स्कूल-अस्पताल बनाए। 24 घंटे व मुफ्त बिजली और इलाज का इंतजाम कर दिया इसीलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। अगर दोबारा जेल चला गया तो भाजपा वाले आपका मुफ्त बिजली-पानी



रोक देंगे और सरकारी स्कूल-अस्पताल खराब कर देंगे। अगर आपने जमकर झाड़ू का बटन दबा दिया तो हमें जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब अगर दोबारा जेल चला गया, तो भाजपा दिल्ली के सारे काम रोक देंगे। भाजपा वाले आपकी मुफ्त

बिजली रोकना चाहते हैं, आपके स्कूल खराब करना चाहते हैं। ये लोग आपके अस्पताल और मोहल्ला क्लीनिक बंद करना चाहते हैं। ये गंदी राजनीति है। हमने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन तब होता जब वो भी देश भर में 5000 स्कूल बनाते। यह गलत राजनीति

है। यह तानाशाही है। इस तानाशाही के खिलाफ हम सबको लड़ना है। श्री केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वाले घूम-घूमकर 400 सीट मांग रहे हैं? जब भाजपा वालों से खोद-खोदकर पूछा तो कहते हैं कि हम देश से आरक्षण खत्म करेंगे।

बड़ी मुश्किल से पता चला कि ये आरक्षण खत्म करने वाले हैं। फिर जैसे रूस के अंदर पुतिन ने संविधान ही बदल दिया, अब वहां चुनाव नहीं होते, केवल पुतिन ही कभी प्रधानमंत्री तो कभी राष्ट्रपति बना रहता है। ये भी देश का संविधान बदलेंगे और चुनाव बंद कराएंगे। अगर आप देश से आरक्षण और लोकतंत्र का खत्म होने से चाहते हैं तो एक-एक आदमी वोट डालने जाना और सिर्फ झाड़ू का बटन दबाएँ।

छत्तीसगढ़ में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, बस्तर में किसानों पर पड़ी खराब मौसम की मार

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में इन दिनों बदली-बारिश जैसे मौसम बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज शनिवार को बस्तर संभाग में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, आज बस्तर संभाग के बस्तर, दंडेवाड़ा, कोडगांव और सुकमा जिले में गरज-चमक और तेज आंधी के साथ बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं एक्टिव सिस्टम के चलते प्रदेश के सभी संभागों में इसका असर देखने को मिलेगा। अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। 12 मई से 14 मई तक सभी संभागों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं 15 मई के बाद से प्रदेश के तापमान में बढोत्तरी होगी।

तापमान में आई गिरावट

ठंडी हवा और बारिश के चलते कई जिलों में दिन और रात के तापमान भी सामान्य से कम रहे। वहीं प्रदेश का अधिकतम तापमान कोरबा में 43.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान नारायपुर में 18.6 डिग्री रिकार्ड किया गया।

शुक्रवार को मौसम ने मचाया कोहराम

बौते दिन शुक्रवार को भी सरगुजा संभाग में सूरजपुर के भैयाथान में तेज आंधी के चलते कई पेड़ रास्ते में गिर गए। इस घटना में एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कार में सवार लोग सहीसलामत हैं। गौरला-पेंडूर-मरवाही जिले में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 मवेशियों की भी मौत हो गई। कई जगहों पर आंधी के चलते पेड़ गिरने से बिलासपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे भी जाम हो गया।

बस्तर में बारिश से तैनुपत्ता और फसलें खराब

वहीं बस्तर में दो दिन पहले तेज आंधी और तेज बारिश हुई थी, जिसके चलते बस्तर के हरा सोना यानि तैनुपत्ता तबाह हो गया है। इसके अलावा किसानों के मकई और सब्जी की फसलें भी खराब हो गईं। बस्तर ब्लॉक के चेरकुर सहित आस-पास के इलाक़े में बौते दिनों हुई वर्षा भी बस्तर के लिए आपत्त साबित हुई। इसके चलते चेरकुर फ़ड में खरीदी गयी 33 मानक बोरा तैनुपत्त खराब हो गए। हालांकि

शहर	अधिकतम तापमान	न्यूनतम तापमान
रायपुर	38.5 डिग्री	25.3 डिग्री
बिलासपुर	38.5 डिग्री	24 डिग्री
बिलासपुर	38.6 डिग्री	25.4 डिग्री
राजनांदगांव	38.5 डिग्री	24.5 डिग्री
जगदलपुर	35.2 डिग्री	23.4 डिग्री
अंबिकापुर	36.4 डिग्री	20 डिग्री
पेंड्रा	37.4 डिग्री	21.4 डिग्री
दुर्ग	39.4 डिग्री	23 डिग्री

तैनुपत्त सूखे थे और टेकेदार को समिति ने परिदान भी कर दिया था, लेकिन तैनुपत्त की भरती नहीं की गयी थी। बता दें, बस्तर में पिछले दो सप्ताह से तैनुपत्त की खरीदी चल रही है। वहीं इस सीजन में बस्तर जिले के तैनुपत्ता की भी अग्रिम विक्री हो गयी है। इसलिए टेकेदारों द्वारा मौसम को देखते हुए खरीदी जारी रखा गया था। इसी बीच जिलेभर में तेज बारिश हुई, जिससे फसल में सूख रहे तैनुपत्त बारिश की चपेट में आए। भर्ती से पहले ही बारिश के चलते तैनुपत्त के नुकसान का आंकलन किया जा रहा है।

श्री कृष्णा (एयरकूल) में
शानदार भीड़ भरा चौथा सप्ताह रोजाना 4 खेल
समय : 12, 3, 6 व 9 बजे
बाल्कनी की एडवेंस बुकिंग प्रारंभ है।
प्रणव झा प्रॉडक्शन कृत
बी.ए. फाईनल ईयर
छत्तीसगढ़ी भाषा में
कलाकार - मन कुरेगी, दीक्षा
जायसवाल, यदु साहू, अंजली चौहान,
राजेश बाघमारे, जयंती मन्हर आदि
ऑनलाईन बुकिंग paytm & bookmyshow.com

SILVER SCREEN MULTIPLEX
10th May to 16th May 2024
KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES
अफसरों के अनुसार विभाग द्वारा इनके संव्यहारे (लेन देन) पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। इन व्यवसायियों द्वारा एक बड़े होटल में शारिदों तथा कॉर्पोरेट आयोजनों में डेकोरेशन का काम किया जाता है। मे. ड्रीम डेकोरेंट्स तथा प्लानर स्टोरी द्वारा

जीएसटी का छापा: रायपुर के 3 ठिकानों पर दबिश, पकड़ी गई करोड़ों की टैक्स चोरी

रायपुर (आरएनएस)। स्टेट जीएसटी की टीम ने रायपुर के तीन कारोबारियों के यहां छापा मार कर करोड़ों की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। यह छापा 9 मई को मारी गई थी। जीएसटी अधिकारियों ने ड्रीम डेकोरेंट्स, प्लानर स्टोरी और टेंट फैक्ट्री नाम से संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की। इन प्रतिष्ठानों ने अपनी जूटि स्वीकार करते हुए 4.5 करोड़ जीएसटी मीके पर ही जमा किया।

अफसरों के अनुसार विभाग द्वारा इनके संव्यहारे (लेन देन) पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। इन व्यवसायियों द्वारा एक बड़े होटल में शारिदों तथा कॉर्पोरेट आयोजनों में डेकोरेशन का काम किया जाता है। मे. ड्रीम डेकोरेंट्स तथा प्लानर स्टोरी द्वारा



अपने जीएसटी रिटर्न में इन डेकोरेशन के आयोजनों को केवल ताजे फूलों का विक्रय दर्शाया जा रहा था जो जीएसटी में कर मुक्त है जबकि ये जीएसटी के अंतर्गत कम्पोजीट सप्लाइ है और इस पर 18 प्रतिशत से जी एस टी लगता है। इन दोनों प्रतिष्ठानों ने 2.75 करोड़ रु का टैक्स अधिकारियों के समक्ष जमा किया। इसी प्रकार एक अन्य व्यवसायी

द्वारा अधिकारियों के समक्ष 1.75 करोड़ रु टैक्स जमा किया। राज्य में जीएसटी से प्राप्त राजस्व बढ़ाने के लिए विभाग ने केवल कर चोरी को रोकने के लिए तय है वरन राज्य में ईमानदार करदाताओं के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए भी प्रयत्नशील है। पिछले कुछ महीनों में विभाग ने कर प्रशासन को चुस्त करने के साथ ही व्यवसायियों के लिए भी कई नए सकारात्मक पहल किए हैं जिनमें ईओडीबी सेल का गठन, टोल फ्री हेल्प लाइन, व्यावसायिक संगठनों के साथ नियमित बैठक, उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर जी एस टी परिषद में रखने जैसे कदम शामिल हैं। आने वाले समय में विभाग द्वारा और भी नए सकारात्मक पहल किए जाएंगे।

यूजीसी नेट जून 2024 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब इस डेट तक करें अप्लाई

रायपुर। यूजीसी नेट जून 2024 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज यानि कि 10 मई थी। लेकिन एनटीए की तरफ से आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक और योग्य स्टूडेंट्स वेबसाइट ugcneta.nta.ac.in पर जाकर 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का स्टैप्स वेबसाइट पर दिया गया है। स्टूडेंट्स को सलाह है कि वे निर्धारित तारीख तक आवेदन कर दें। क्योंकि किसी भी अभ्यर्थी का फॉर्म गलत भरा हुआ एक्सटेंड नहीं किया जाएगा।

स्टूडेंट्स इस बात को भी ध्यान रखें कि अगर उनके फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती होगी तो वे उसमें सुधार भी सकेंगे। फॉर्म में सुधार के लिए लिंक आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के

बाद एक्टिव किया जाएगा। हालांकि, स्टूडेंट्स सिर्फ नाम, पता और एजाम सिटी जैसी मूलभूत डिटेल्स में ही संशोधन कर पाएंगे।

यूजीसी नेट जून 2024 के लिए ऐसे करें अप्लाई

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcneta.nta.ac.in पर जाएं। होमपेज पर यूजीसी नेट जून 2024 पंजीकरण/लॉगिन लिंक ढूँढें और क्लिक करें। पंजीकरण करें और आवेदन पत्र भरें के लिए आगे बढ़ें। यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो बस मांगे गए विवरण के साथ लॉग इन करें। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें। भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।

ज्यादा पैसों की लालच में बड़ी मात्रा में तोड़े जा रहे तेन्दूपते

अभी तक 44 प्रतिशत हो चुकी तोड़ाई, मौसम की खराबी की वजह से तोड़े गए पत्ते हो रहे खराब

राजनांदगांव (दावा)। अविभाजित राजनांदगांव जिले में एक मई के आसपास से तेन्दूपता तोड़ाई का कार्य शुरू हो गया है। इस बार राज्य सरकार ने तेन्दूपता तोड़ाई करने वाले श्रमिकों का रेट प्रति मानक बोरा 5500 रूपए कर दिया है। इससे ज्यादा पैसा कमाने की लालच में श्रमिक बड़ी मात्रा में तेन्दूपता की तोड़ाई कर रहे हैं। चूँकि बारिश, पानी, हवा-तूफान का मौसम बना हुआ है इससे तेन्दूपता श्रमिकों द्वारा तोड़े गए पत्तों व पूड़ों में खराबी उत्पन्न होने लगी है। इससे ठेकेदारों का घाटा होना निश्चित है। इससे वे परेशान नजर आने लगे हैं।



बता दे कि राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र में आने वाले ग्राम छुरिया कला, बेंदड़ी, पेडरानी, खोमा, डोंगराव, मुडपार, चिलहाटी, चारभांडा, चौकी, परेवाडीह, खुजी, आसारा, भडसेना, अरजकुंड, सालहेकसा आदि में तेन्दूपता तोड़ाई का काम द्रुत गति से जारी है। पिछले तीन-चार दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से तेन्दूपता तोड़ाई का कार्य अभी भी

स्थिति देखने में आई है। ठेकेदार के आदमी इन खराब हो रहे तेन्दूपता को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रोजाना एक-दो दिन में मौसम में बन रही उलट-फेर की स्थिति से उन्हें यह लगने लगा है कि उनके हाथ अब उक तोड़े गए तेन्दूपता सही हालात में नहीं आना है।

पावास समितियों से हो रहा तोड़ाई कार्य

बता दे कि जिले में 51 समितियों के माध्यम से तेन्दूपता तोड़ाई का कार्य जारी है। इसमें 50 हजार संग्रहक लगे हुए हैं। चूँकि राज्य सरकार द्वारा प्रति मानक बोरा चार हजार के बजाय साढ़े पांच हजार कर दिया गया है। इससे संग्रहक खुश हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए बड़ी मात्रा में तेन्दूपता तोड़ाई का कार्य कर रहे हैं। वैसे बता दे कि इस बार 84 हजार 4 सौ मानक बोरा तेन्दूपता तोड़ाई का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 669 फुड तैयार किए जा चुके हैं। एसडीओ रतन कुमार गजभिए ने बताया कि तेन्दूपता में खराबी पेटों में रहने पर आती है। पानी की बूंदें उठरने से इसे माटा दाग कहा जाता है। संग्रहकों द्वारा तोड़े गए तेन्दूपता में पानी पड़ने से झटक दिए जाने पर उसकी खराबी जाती रहती है। इसलिए डरने की बात नहीं है। मौसम की खराबी की वजह से तेन्दूपता तोड़ाई कार्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है।

बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही पूर्ण स्वरूप में आ गई चारधाम यात्रा, 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने पहले दिन किया दर्शन

बद्रीनाथ। श्रद्धालुओं के भारी उत्साह और भगवान नारायण के जयकारों के बीच रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। इसी के साथ चारधाम यात्रा पूर्ण स्वरूप में आ गई। तीन अन्य धामों गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट 10 मई को खोले जा चुके हैं। कपाट खुलने पर बद्रीनाथ धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम की हुई।

पहले दिन 20 हजार से अधिक भक्तों ने पूजा-अर्चना की। परंपरा के अनुसार जोशीमठ से 25 किमी दूर सुभाई गांव (तपोवन) में स्थित भविष्य बद्री धाम और उर्मि घाटी में स्थित बंशी नारायण के कपाट भी बद्रीनाथ धाम के साथ खोल दिए गए। आर्मी बैंड और पीआरडी के डोल-गाइडों की धुन के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह छह बजे खोले गए। कपाटोद्घाटन की प्रक्रिया मंदिर के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी, धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, वेदपाठी, हक हकृकथारी, मंदिर समिति के पदाधिकारी और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में

सुबह चार बजे शुरू हो गई थी। सबसे पहले मंदिर में देवताओं के खजांची कुबेरजी, भगवान नारायण के सखा उद्धवजी और गाड़ू घड़ो को मंदिर में प्रवेश कराया गया।

गर्भगृह के कपाट खोलते ही अखंड ज्योति के दर्शन के बाद महालक्ष्मी को उनके मंदिर में विराजमान किया गया। साथ ही कुबेरजी और उद्धवजी को यथास्थान विराजित किया गया। अभिषेक के बाद भगवान को बाल भोग और खीर भोग अर्पित किया गया। दोपहर 12 बजे भगवान बद्री विशाल को प्रत्येक दिन लगने वाला राजभोग दाल और चावल के रूप में अर्पित किया गया और फिर उसे प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को दिया गया। कपाटोद्घाटन का साक्षी बनने के लिए शनिवार शाम ही पांच हजार से अधिक तीर्थयात्री धाम पहुंच गए थे। इसके अलावा 15 हजार से अधिक तीर्थयात्री विभिन्न पड़वों पर मौजूद थे, जो सुबह होते ही धाम के लिए चल पड़े। कपाट खुलते ही बद्रीशपुरी नारायण के जयकारों से गूंज उठी।

आज झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

रांची (आरएनएस)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। याचिका में कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई है।



अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोरेन द्वारा चुनाव के मद्देनजर अपनी रिहाई की मांग को लेकर दायर एक अलग याचिका का निपटारा कर दिया। इसमें कहा गया है कि तीन मई को गिरफ्तारी के

खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के आदेश के मद्देनजर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता की प्रार्थना निरर्थक हो गई है। ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

महादेव पैनल से आईपीएल मैच में खिल्ला रहे थे सद्दा, कलकत्ता में रेड कर रायपुर पुलिस ने बिहार के 5 सटोरियों को किया गिरफ्तार

रायपुर (दावा)। राजधानी रायपुर पुलिस ने महादेव सद्दा ऐप पर आईपीएल क्रिकेट मैच में सद्दा खिलाने वाले 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल में छापामार कार्रवाई कर सद्दा के कारोबार से जुड़े बिहार के रहने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों के कब्जे से पुलिस ने 7 नाग लैपटॉप, 19 मोबाइल फोन, 7 पास बुक, 5 चेक बुक और 10 एटी.एम. कार्ड जब्त किया है। आपको बता दे कि इससे पहले भी रायपुर पुलिस ने 8 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप और बैंक खातों के डिटेल के साथ ही कैश जब्त कर चुकी है। लगातार सटोरियों के खिलाफ राजधानी पुलिस की इस कार्रवाई से सद्दा खिलने और खिलाने वाले लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।

गौरतलब है कि राजधानी पुलिस लगातार सद्दा के कारोबार से जुड़े शांति सटोरियों की धरफकड़ कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर पुलिस ने एक बाबा फिर पश्चिम बंगाल में छापामार कार्रवाई की गयी। आज रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा और एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सटोरियों पर कार्रवाई के लिए विशेष रूप से टीम गठित



कर टास्क दिया हुआ था। सटोरियों के खिलाफ राजधानी रायपुर पुलिस की एण्टी फ्राईम एण्ड सायबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कलकत्ता के न्यू टाउन गोलाबारी 24 पराना स्थित एक फ्लैट में रेड कार्यवाही कर फ्लैट से 08 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सद्दा संचालन में प्रयुक्त 05 नाग लैपटॉप, 36 नाग मोबाइल फोन जुमला कीमती लगभग 12 लाख रुपये तथा 24 बैंक पास

बुक एवं 24 नाग एटीएम कार्ड जस कर सटोरियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया था। गिरफ्तार सटोरियों से पृष्ठाछ एवं ऑर्गनाइजेशनल इनपुट में पाया गया कि उनके अन्य साथी कलकत्ता में बैंकवर महादेव एप पैनल के माध्यम से सद्दा संचालित कर रहे हैं। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम का गठन कर कलकत्ता खाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा कलकत्ता पहुंच कर सटोरियों की पतासाजी

करते हुए सटोरियों को लोकेट किया गया जो कि कलकत्ता के श्रद्धि अपार्टमेंट स्थित एक फ्लैट में रहकर सद्दा खिला रहे थे। जिस पर एण्टी फ्राईम एण्ड सायबर यूनिट टीम के सदस्यों द्वारा उसी अपार्टमेंट में फ्लैट क्रियेटर पर लेने की योजना बनाकर सभी फ्लैट की रेकी कर रहे थे, और प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही थी। पूरे लोगों की उपस्थिति होते ही रायपुर पुलिस की टीम ने फ्लैट में रेड की कार्यवाही की।

रेड कार्यवाही के दौरान फ्लैट में कुल 05 व्यक्ति उपस्थित थे, जो लैपटॉप एवं मोबाइल फोन से सटअप तैयार कर ऑनलाइन सद्दा संचालित कर रहे थे। सटोरियों से 700 से अधिक पृष्ठाछ करने पर उनके द्वारा आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान महादेव सद्दा का आई.डी. पैनल के माध्यम से ऑन लाइन सद्दा का संचालन स्वीकार किया गया। जिसके बाद सभी 05 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लैपटॉप 07 नाग एवं मोबाइल फोन 19 नाग जुमला कीमती लगभग 6 लाख 60 हजार रुपये जस किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ गंज थाना में अपराध दर्ज कर सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

वंशिका को जिला साहू संघ ने दी बधाई



राजनांदगांव (दावा)। जिला साहू संघ के वर्षों से स्थापित नेता एवं समाज संगठन के सलाहकार जोधी राम साहू की पौती वंशिका पिता तोरण साहू को जिला साहू संघ के अध्यक्ष भागवत साहू सहित कई पदाधिकारियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

दसवीं की प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करके समाज व जिले का गौरव बढ़ाया है वंशिका ने

शुभकामनाएं दी है। उनके इस उपलब्धि पर जिला साहू संघ अध्यक्ष भागवत साहू, महामंत्री नीलमणि साहू, उपाध्यक्ष नीरा

साहू, संयोजिका केशरी साहू, पुरुषोत्तम साहू, गीता साहू, अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ संयोजक यशवंत साहू, सचिव मिलन साहू, संगठन सचिव माधव साहू, संभागीय संयोजक रूपेश साहू, प्रदेश सह संयोजक परदेशी राम साहू, पवन कुमार साहू, सदस्य तिजेंद्र साहू, भोज साहू, राजेश साहू, अनिल साहू, हेमनाथ साहू, चंद्र भूषण साहू आदि ने उनके निवास स्थान ग्राम हालेकोसा, छुरिया पहुंचकर बधाई दी है।

पुलिस ने लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार, लूट का मोबाइल जम

राजनांदगांव (दावा)। डोंगरगढ़ पुलिस ने थाना प्रभारी सी आर चंदा के नेतृत्व में एक और सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने सायकल पर सवार हैक्टर पर जा रही लड़की से लूटपाट करने वाले आरोपियों को घर दबोचा है।

डोंगरगढ़ थाना प्रभारी सी आर चंदा ने बताया कि उनके थाना क्षेत्र की प्रार्थिया भूमिका जाम्बुलकर निवासी कुरुभाट अश्वय तृतीया के दिन 10 मई शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे सायकल में डोंगरगढ़ से अपने घर जा रही थी इस दौरान रास्ते में सामने के तरफ से एक मोटर सायकल में तीन बादमाशा पास आकर उसे

सायकल से घर जा रही लड़की से आरोपियों ने की थी लूटपाट

सायकल सहित धक्का देकर गिरा दिया और उसके मोबाइल फोन, आधार कार्ड लूट कर फरार हो गये।

पीड़िता को इस रिपोर्ट पर धारा 392, 34 भादवि का अपराध दर्ज कर जिला पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग एवं अति पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ आशिष कुजुम को तत्काल सूचना दी और उनसे विवेचना हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त करते हुए दिये गये निर्देशों का पालन कर तत्काल अपने साथ

उप निरीक्षक राजेश कुमार एवं योगेश पटेल, तथा सजिन गणेश चौधान एस.एम. कुरेशी, आरक्षक प्रयंश सिंह, चन्द्रप्रताप सिंह, लीलाधर मण्डलोई के द्वारा घटना गंभीरता को देखते हुये अलग-अलग टीम तैयार की और आरोपियों के पता तलाश में जुट गये।

इस दौरान एक आरोपी दीपक बाघमारे पिता मुकेश बाघमारे उम्र- 21 साल निवासी रजानगर 34 नंबर- 20 डोंगरगढ़ को पकड़कर पुष्पाछ करने पर अन्य आरोपों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम देना बताया तथा लूटे गये पीड़िता के मोबाइल फोन को जस कराया है जिसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिमांशु पर भेजा गया। प्रकरण के दो अन्य आरोपी फरार बताए जाते हैं जिसकी पतासाजी की जा रही है।

तीन कार डीलरों की किडनैपिंग के बाद नंगा करके बुरी तरह पीटा, प्राइवेट पार्ट में दिया बिजली का झटका; वीडियो वायरल

बेंगलुरु (आरएनएस)। कर्नाटक के कालाबुर्गी जिले में तीन कार डीलरों को किडनैप करने के बाद उनके साथ अमानवीय हकत की गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि तीन लोगों को नंगा करके बुरी तरह पीटा जा रहा है। इसके बाद उनके प्राइवेट पार्ट में बिजली का झटका दिया जाता है।

पुलिस ने इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया, कालाबुर्गी सिटी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कुछ लोग तीन लोगों को मारते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उन्हें निर्वस्त्र करके पीटाई की जा रही थी। इसके बाद 5 मई को सात लोगों को खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इमरान पटेल, मोहम्मद मतीन उर्फ स्टील मतीन, मोहम्मद

जिया उल हुसैन, मोहम्मद अफजल शेख, हुसैन शेख, रमेश और सागर के रूप में हुई है। बताया गया कि ये लोग किसी बड़े गैंग के सदस्य हैं। पुलिस बाकी आरोपियों की भी पहचान कर रही है। पीड़ितों ने शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि एक सेकंड हेंड कार देखने के बहाने उन्हें ले जाया गया था और फिर कमरे में बंद कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि पहले सुरनासन जाह पर उनको बुलाया गया और फिर कमरे में बंद करके पीटाई शुरू हो गई। वे पीड़ितों से पैसे की डिमांड कर रहे थे। वहीं जंग बात नहीं बनी तो उन्होंने प्राइवेट पार्ट में बिजली का झटका देना शुरू किया। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तार से जांच की जा रही है और जल्द ही और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खरगे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई... कांग्रेस बोली- विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहा चुनाव आयोग

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में अब तक तीन फेज की वोटिंग हो चुकी है। चौथे फेज में 13 मई यानी सोमवार को मतदान है। इससे ठीक पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि विपक्षी नेताओं को चुनाव अधिकारी निशाना बना रहे हैं। पार्टी ने ये भी दावा किया कि बिहार के समस्तीपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं को 'स्वतंत्र रूप से' घूमने की इजाजत दी जा रही है।

खड़गे ने शनिवार को बिहार के समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में चुनावी परिषदों को संबोधित किया था। कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर

एक वीडियो मैसेज जारी किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि केरल में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। अब बिहार के समस्तीपुर में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है।

बिहार कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ का दावा

बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राठौड़ ने कहा कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने खुद समस्तीपुर में खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। वीडियो में एक हेलीकॉप्टर के चारों ओर पुलिसकर्मी और अधिकारी दिखाई देते हैं। राजेश राठौड़ ने अपने वीडियो मैसेज में ये भी कहा कि निर्वाचन आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कांग्रेस नेताओं के हेलीकॉप्टरों की ऐसी जांच नियमित है तो

परिवार की खुशहाली में ट्रस्ट, टाइम, टॉक और थैंक्स ये चार 'टी' का बड़ा महत्व है - सुधाकर मुनि

राजनांदगांव (दावा)। 12 मई युग प्रधान गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनि श्री सुधाकर जी ने आज यहां परिवार की खुशहाली के बारे में कहा कि परिवार की खुशहाली में ट्रस्ट, टाइम, टॉक और थैंक्स ये चार 'टी' का बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों का एक दूसरे पर ट्रस्ट अर्थात् भरोसा होना चाहिए। एक दूसरे के लिए टाइम अर्थात् समय निकालना चाहिए।

टॉक अर्थात् प्रेम पूर्ण संवाद होना चाहिए और एक दूसरे के अच्छे कामों के लिए थैंक्स कहने की भावना होनी चाहिए। मुनि श्री ने कहा कि हर आत्मा स्वतंत्र है परंतु भगवान महावीर का कथन है कि एक जीव का अस्तित्व दूसरे जीव पर आश्रित है। व्यवहारिक जीवन के धरातल पर सुखी जीवन तभी बन सकता है जब परिवार सुखी हो। मुनि श्री सुधाकर जी ने तैरपंथ भवन में अपने नियमित प्रवचन में कहा कि सात वारों से भी बड़ा कोई वार है तो

वह है परिवार।

उन्होंने कहा कि जिस परिवार में एकता और अपनापन है, वह परिवार सुखी है और जिस परिवार में छलकपट है, वह परिवार नरक का द्वार है। उन्होंने कहा कि परिवार तो वह होता है जिस परिवार में एक दूसरे पर भरोसा हो। विचार से ही वास्तु का निर्माण होता है। मैं प्रेम लुटाऊंगा तो प्रेम मिलेगा और नफरत लुटाऊंगा तो नफरत मिलेगा। एक दूसरे पर विश्वास संबंध को प्रगाढ़ बनाता है। विश्वास हमारे रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है। अहम और घमंड ने न जाने आज तक कितने संबंधों को तोड़ा है। खाने में जहर आ जाए तो इसका उपचार संभव है किंतु कान में जहर आ जाए तो फिर इसका उपचार संभव नहीं है। इससे निपटने के लिए पहला तीर है विश्वास और दूसरा तीर है टाइम। तलाक का सबसे बड़ा कारण है समय नहीं देना। मोबाइल सबका समय खा गया है। आप परिवार को खुशहाल

एक शब्द किसी को दिल में उतार सकता है तो एक शब्द किसी को दिल से उतार भी सकता है

देखना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है आप परिवार के सदस्यों को समय दें। बच्चों को समझाने की कोशिश तो होती है किंतु बच्चों को समझने की कोशिश कभी नहीं होती। हम बच्चों को समझने की कोशिश करें।

मुनि सुधाकर जी ने कहा कि संवाद करना सीखिए। घर में रहते हुए यदि आप अपनापन संवाद नहीं करते तो यह परेशानी का कारण है। संवाद से अच्छे-अच्छे मसले सुलझ जाते हैं। संवाद में रोशनी है और विवाद में अंधेरा। घर में आप कोई भी भाषा बोलिए किंतु उस भाषा में एक भाषा अवश्य शामिल होनी चाहिए वह है प्रेम की भाषा। बिना हठ्टी वाले जुवाने से निकली बात से अनेक हठ्टियां टूट जाती

है। एक शब्द पराए को अपना बना सकता है और अपने को पराया एक शब्द से आप किसी के दिल में उतर सकते हैं और एक शब्द की वजह से आप किसी के दिल से उतर सकते हैं। बोलने से पहले शब्दों का चयन करें। मुनि श्री ने कहा कि आपके जीवन में शिकायत नहीं धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य शिकायत नहीं धन्यवाद होना चाहिए। व्यक्ति प्रशंसा तो पाना चाहता है किंतु धन्यवाद नहीं कहना चाहता। परिवार में बड़ों का सम्मान होना चाहिए किंतु अधिकार का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। दूसरों की कमियों को मत देखो, खुशियों को देखो। खुशियों को देखो तो धन्यवाद अवश्य कहेंगे। समझदार व्यक्ति पहिले होता है जो दूसरों के झगड़ों से दूर रहता है।

मुनि श्री ने वास्तु के विषय पर कहा कि घर में घड़ी, कांच व झाड़ू का काफी महत्व है और इसे उचित स्थान पर रखना

चाहिए। घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए और कांच में धूल नहीं जमना चाहिए। कांच में यदि धूल हो तो समझ लीजिए कि उस घर में युवा नशा कर रहे हैं। कांच में शक्ति होती है और यदि आपकी सकारात्मक शब्दों का चयन करें। मुनि श्री ने कहा कि परिवार में शिकायत नहीं धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य शिकायत नहीं धन्यवाद होना चाहिए। व्यक्ति प्रशंसा तो पाना चाहता है किंतु धन्यवाद नहीं कहना चाहता। परिवार में बड़ों का सम्मान होना चाहिए किंतु अधिकार का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। दूसरों की कमियों को मत देखो, खुशियों को देखो। खुशियों को देखो तो धन्यवाद अवश्य कहेंगे। समझदार व्यक्ति पहिले होता है जो दूसरों के झगड़ों से दूर रहता है।

मुनि श्री ने वास्तु के विषय पर कहा कि घर में घड़ी, कांच व झाड़ू का काफी महत्व है और इसे उचित स्थान पर रखना

यमुनोत्री धाम में एक और महिला श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत, यात्रा के दो दिनों में तीन मौतें

उत्तर काशी (आरएनएस)। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का रविवार को बद्रिनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद पूरी तरह आगाज हो गया। हर दिन यहां हजारों की संख्या में लोग धाम में दर्शन करने आ रहे हैं। वहीं, यमुनोत्री धाम के कपाट खुले अभी सिर्फ दो ही दिन हुए हैं और यहां दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं में से अब तक तीन की मौत हो चुकी है। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट



10 मई को खुले थे। यमुनोत्री धाम में 10 मई को ही दो श्रद्धालुओं की अलग-अलग स्थान पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। यात्रा के दूसरे दिन शनिवार 11 मई को भी यमुनोत्री धाम में एक और श्रद्धालु की मौत हो गई। महिला तीर्थ यात्री की मृत्यु भी हृदय गति रुकने से हुई है। जानकारी के अनुसार, यमुनोत्री धाम के दर्शन करने जा रही मध्य प्रदेश के नीमच

की रहने वाली सपत्तिबाई (62) की जानकी चट्टी के निकट बेहोश हो गई थी। अन्य तीर्थ यात्रियों ने महिला तीर्थ यात्री को जानकी चट्टी अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्यवाही कर शव को परिवारों को सौंप दिया।

डिप्टी रेंजर से नाराज ग्रामीणों ने लात घूसों से की पिटाई, फिर मारते मारते थाने लेकर पहुंचे



लोमरी। विवादित डिप्टी रेंजर की ग्रामीणों ने घेरकर पिटाई कर दी। यही नहीं पिटाई के बाद डिप्टी रेंजर को पुलिस के हवाले भी कर दिया। मामला खुड़िया वन परिक्षेत्र का है। दरअसल पांच दिन पहले डिप्टी रेंजर ने आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। इस घटना के बाद से ही ग्रामीण डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे से नाराज चल रहे थे। इसके बाद ग्रामीण मौके की ताक में थे, ऑफिस में डिप्टी रेंजर के मिलते ही ग्रामीणों ने पहले तो उनकी पिटाई की गई और फिर उन्हें मारते हुए खुड़िया पुलिस चौकी लाया गया। ग्रामीणों का आरोप था कि डिप्टी रेंजर ग्रामीणों को काफी परेशान करता है कुछ दिन पहले उसने एक आदिवासी युवक की भी पिटाई कर दी थी। उन्होंने डिप्टी डेंजर के खिलाफ कार्यवाही की भी मांग की है। डिप्टी रेंजर का लोमरी के सामुदायिक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

प्रियांश ने विकासखंड में प्रथम स्थान प्राप्त कर द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम रोशन किया

डोंगरगांव (दावा)। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा के कक्षा दसवीं के छात्र प्रियांश महोबिया ने 96 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विकासखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अपने स्कूल का नाम रोशन करने वाले प्रियांश महोबिया ग्राम शिवपुरी के निवासी हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का परीक्षा परिणाम 9 मई को घोषित किया गया। हायर सेकेंडरी माध्यमिक स्कूल द्वारा का परीक्षा



दसवीं में 74 प्रतिशत एवं 12वीं में 83% रहा। 12वीं की छात्रा हेमलता वर्मा (वाणिज्य) ने 84 प्रतिशत, कुमारी भारती (कला) ने 83 प्रतिशत एवं काजल कोसरे ने 79 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपने-अपने संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। संस्था के प्राचार्य एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी है।

रैली में मां हीराबेन की पेंटिंग बनाकर लाए शस्त्र से पीएम मोदी ने कही ये बात

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हाली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य की तुणमूल कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। वहीं, पीएम मोदी की रैली में अनोखा नजारा भी देखने को मिला। दरअसल, जब पीएम मोदी रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी, उनकी नजर हजारों की भीड़ में खड़े दो लोगों पर पड़ी। जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी मंच से कहते हैं कि यहां दो सज्जन कोने में पेंटिंग बनाकर लाए हैं और कब से हथ उपर करके खड़े हैं। आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। लेकिन, आप इतने प्यार से पेंटिंग लेकर आए हैं और वो भी मेरी मां का चित्र बनाकर लाए हैं और पश्चिम की दुनिया आज 'मदर्स डे' मना रही है। हम भारत के लोग तो 365 दिन मां की भी पूजा करते हैं, दुर्गा मां और काली मां की भी पूजा करते



हैं और भारत माता की भी पूजा करते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं अपने एस्पोजी कमांडो से कहूंगा कि दोनों लोग जो मेरी मां का चित्र बनाकर लाए हैं, उनसे वह पेंटिंग लेकर मुझे दे दें। मंच से पीएम मोदी ने दोनों से अपना नाम और पता पेंटिंग के पीछे लिखने को भी कहा। उन्होंने कहा, मैं जरूर आपको चिट्ठी लिखने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दोनों लोगों का आभार भी व्यक्त किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और यूजर्स पीएम मोदी की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। इससे पहले तेलंगाना के महबूबनगर में प्रधानमंत्री मोदी का दिव्यांग बहनों के लिए अनोखा प्रेम दिखाई दिया था।

शाला में रसोईयों को विकासखण्ड स्तर पर तीन स्थानों में प्रशिक्षण संपन्न

डोंगरगांव (दावा)। जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के निर्देशानुसार डोंगरगांव विकासखंड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला व पूर्व माध्यमिक शाला में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत (मध्याह्न भोजन योजना) कार्यक्रम कुल रसोईया चार सौ दस का विकास खंड स्तर पर तीन स्थानों पर प्रशिक्षण दिया गया। दिनांक 08 मई को डोंगरगांव एवं अर्जुनी तथा दिनांक 09 मई को तुमडीबोड़ में रसोईया को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सभी रसोईया को मध्याह्न भोजन में किस प्रकार गुणवत्ता लाया जाए, न्योता भोजन की जानकारी, शुद्ध व स्वच्छता पूर्वक किस प्रकार भोजन व भोजन कक्ष को रखा जाए, प्रति छात्र सभी अनाज की दर की जानकारी, मीनू के हिसाब रोजना बच्चों को भोजन देने की जानकारी व उनके अधिकार संबंधी रसोईया को दी गई। प्रशिक्षण में विकास खंड शिक्षा अधिकारी आर एल पात्रे, प्राचार्य श्रीमति विभा पांडेय शा.उ.मा.शाला अर्जुनी, प्राचार्य के.आर साहू शा.उ.मा.शाला



तुमडीबोड़, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुश्री रश्मि ठाकुर, क्षितिज सोरी, जयन्त साहू (अतिरिक्त प्रभार-प्राचार्य सेजस डोंगरगांव), मध्याह्न भोजन प्रभारी एन के देवांगन सहायक ग्रेड-02, विकासखंड डोंगरगांव के समस्त संकुल समन्वयक, मास्टर ट्रेनर देवेंद्र किशोर साहू, सनन साकरे, माखन लाल राते, दानिाम वर्मा, धनसाय सलामे, लच्छुराम साहू, कार्यालय विकासखंड से अभिष्का कुंवर, फिनेश कोमरे, प्रवीण राजपूत, डिकेश साहू, नेमीचंद साहू, ओमकार पटेल, मनोज निषाद, अक्षय श्रीवास्तव, तोयस साहू, सबी धनपाल, शा. उ. मा. शाला तुमडीबोड़, प्रशांत पांडे एवं श्रीमति अमा साकरे आदि का रसोईया प्रशिक्षण में विशेष योगदान रहा।

संतोष पाण्डेय रिकार्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे - विजेन्द्र सिंह ठाकुर

डोंगरगांव (दावा)। विधानसभा क्षेत्र के मीडिया प्रभारी एवं जिला किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष विजेन्द्र सिंह ठाकुर ने प्रेस विज्ञापि जारी कर आगामी 4 जून को, समूचे भारत साहित छत्तीसगढ़ में भी लोगों की नजर होगी। साथ ही पूरे प्रदेश की नजर राजनांदगांव सीट पर केंद्रित होगी। राजनांदगांव के लिए 4 जून ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि इस दिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जिसे विधानसभा चुनाव में जनता पहले ही नकार चुकी है। कांग्रेस की राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से



पुरे भारत का रझान भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हुए हम सब देखेंगे कांग्रेस के लोग कहते रहे की राजनांदगांव क्षेत्र में कांग्रेस बहुत मजबूत होगी किंतु कांग्रेस के लोग यह भूल रहे थे की भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का थुपड़ा साफ हुआ है पूरे प्रदेश का खलनायक भूपेश बघेल को ही माना जा रहा था तो फिर राजनांदगांव की जनता इन्हें कैसे बर्दाश्त करेगी विजेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कांग्रेस के लोग बेवजह का अफवाह फैला कर छत्तीसगढ़ के शांत माहौल को आरक्षण के आग में झोकने का प्रयास किया किंतु छत्तीसगढ़ की शांतिप्रिया जनता ने शांति बनाते हुए आरक्षण, जात, पात से ऊपर उठकर मोदी की गारंटी विकास की रहा को चुना हम सब ने देखा छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सभाओं में स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज कराई

विजेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा राजनांदगांव जिले की जनता ने गाल, शहर, के बूथ पर किस प्रकार से सक्रियता से मतदान की है यह हम सब ने देखा है विजेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व व मंडल से लेकर बूथ के सक्रिय सदस्य बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक सहसंयोजक के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के जांबाज कार्यकर्ताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है निश्चित ही राजनांदगांव की जनता इस बार इतिहास लिखने जा रही है जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय की सरकार बनी है तब से मोदी की गारंटी के तहत किए गए घोषणाओं को लगातार लागू किया जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के जनता के हित में हर एक निर्णय लेने को अग्रसर रहेगी।

शा. शाला बीजेभाटा का कक्षा 10वीं में वोकेश व 12वीं में भावेश कुमार प्रथम

राजनांदगांव (दावा)। छा.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें शास. उच्च. माध्य.शाला बीजेभाटा के कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 92.48 प्रतिशत एवं कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 92.23 प्रतिशत रहा। कक्षा 10वीं में चोकेरा कुमार ने 91.33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, कु. यशोदा ने 88.50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान एवं कु. कामिनी ने 86.16 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में भावेश कुमार ने 86 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, चन्द्रकांत ने 85.5 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान एवं कु. मोनिका ने 85.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस परीक्षा परिणाम से प्रसन्न होकर संस्था के प्राचार्य डॉ. शोभा श्रीवास्तव एवं अन्य सभी शिक्षकों ने बच्चों को आशीर्ष प्रदान किया एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी।

कार की टक्कर से बाप-बेटे समेत 4 की मौत, परिवार में पसरा मातम



झाबुआ (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में रविवार को भीषण हदसा हो गया जहां कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले पुलिस मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी में मुताबिक, यह घटना राणापुर थाने क्षेत्र के कालिया-कोटड़ी चौराहे की है। जहां कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त की थी कि बाप-बेटे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राणापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया है। इधर, घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। वहीं इस घटना के बाद परिवारों को रो-रोकर नुरा हाल है। फिलहाल, पुलिस मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

भागवत साहू ने मां भानेश्वरी जयंती कार्यक्रम की सफलता जताया आभार



राजनांदगांव (दावा)। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ रायपुर जिला साहू समाज राजनांदगांव भानेश्वरी मन्दिर शक्तिपीठ ग्राम पंचायत सिंघोला द्वारा आयोजित मां भानेश्वरी जयंती सिंघोला 9 मई दिन गुरुवार 2024 को कार्यक्रम में पहुंचे समस्त अतिथियों डॉ. रमन सिंह, ताम्रध्वज साहू, टहल साहू, श्रीमती रमशिला साहू, खेदुम साहू, श्रीमती गीता साहू, मोती साहू, भुनेश्वर साहू, चतुर्भुज साहू, श्रीमती अंजनी साहू, सोमन साहू, प्रमोद साहू, पवन साहू, मोती साहू, रमेश साहू, डॉ. निरेंद्र साहू, तिलेश्वर साहू, विष्णु साव

श्री गुरु संघ के इंचार्ज स्वामी स्वपन दास जी ने की देहदान की घोषणा

दुर्ग (दावा)। सेक्टर 6 स्थित श्री गुरु संघ के इंचार्ज स्वामी स्वपन दास जी ने आज अपनी देहदान की घोषणा कर वसीयत नवदृष्टि फाउंडेशन के सदस्य कुलवंत भाटिया, राज आद्वित्या, राजेश पारख, हरमन दुल्लाई को सौंपी। श्री गुरु संघ के सदस्य अरुण चक्रवर्ती, दुर्गा प्रसाद, शंकर देव देहदान के साक्षी बने स्वामी जी ने कहा वो देश के सभी हिस्सों में भक्तों से मिलने जाते हैं एवं लोगों को सतकर्म करने के उपदेश देते हैं अब वो जहां भी जाएंगे। प्रवचन के माध्यम से देहदान, नेत्रदान एवं त्वचा दान के संबंध में लोगों जागरूक करेंगे। स्वामी जी ने कहा कई सालों से उनके मन में देहदान की इच्छा थी किंतु उचित माध्यम नहीं मिला, अब नवदृष्टि फाउंडेशन के सहयोग से संभव हुआ। स्वामी जी ने कहा इसान के मरने के बाद उसका शरीर खाक में मिल जाता है यदि देहदान करे तो कई लोगों का भला हो सकता है, यही सच्चा धर्म है।



स्वामी स्वपन दास जी ने कहा यदि उनका ब्रेन डेड होता है तो उनके सभी ऑर्गन डोनेट कर दिए जाएं जिससे बहुत लोगों को नया जीवन मिल सके। राजेश पारख ने कहा स्वामी जी के देश-विदेश में बहुत भक्त हैं स्वामी जी के देहदान से सभी लोगों में सकारात्मक सन्देश जाएगा। नवदृष्टि फाउंडेशन के मंगल अग्रवाल ने कहा हमारी संस्था लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं व लोगों की देहदान व नेत्रदान, त्वचादान हेतु सोच बदली

19 वर्षीय युवती ने आग लगाकर कर ली खुदकुशी

दुर्ग। जिले के नंदनी थाना अंतर्गत गोढ़ी गांव में एक 19 साल की लड़की ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। युवती की खुदकुशी का कारण फिलहाल अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका का नाम विद्या श्रीवास है जो कि नंदनी थानाक्षेत्र के गोढ़ी गांव की रहने वाली थी। पिता खेती किसानी और मजदूरी का काम करते हैं। शनिवार को विद्या की मां अपनी छोटी बेटि के साथ किसी काम से बाहर गई थी। पिता भी काम पर निकल गए थे। भाई खेलने गया था। विद्या घर पर अकेली थी। इसी दौरान विद्या ने घर में रखे मिट्टी के तेल को अपने ऊपर छिड़कर खुद को आग लगा ली। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े। जब तक वो उसे बचाते वो पूरी तरह से जल गई थी। लोगों ने घर का दरवाजा तोड़कर विद्या को बाहर निकाला तो देखा कि वो जली हुई हालत में घर के अंदर पड़ी है। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की मौत का कारण अज्ञात है। फिलहाल नंदनी पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। लाईव वीडियो बनाकर नाबालिग ने किया सुसाईड सूरजपुर। जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने लाइव वीडियो बनाते हुए सुसाईड कर लिया है। मृतक के सुसाईड का वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। मिली जानकारी के सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के महावीरपुर गांव में एक नाबालिक लड़के ने फर्सी लगाकर आत्महत्या कर ली।

पहला कॉलम...

विदेशी मुद्रा भंडार 3.7 अरब डॉलर बढ़कर 641.6 अरब डॉलर पर पहुंचा

मुंबई। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और विशेष आह्वान अधिकार (एसडीआर) में हुई बढ़ोतरी की बदौलत 03 मई को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.7 अरब डॉलर के इजाफे के साथ 641.6 अरब डॉलर हो गया। वहीं, इसके पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.4 अरब डॉलर घटकर लगातार तीसरे सप्ताह गिरता हुआ 637.9 अरब डॉलर पर रहा था।

रमनदीप सिंह पर बीसीसीआई ने ठोका जुर्माना

नई दिल्ली। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल-2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। इस टीम ने शनिवार को अपने घर में मुंबई इंडियंस को मात देकर प्लेऑफ में जगह बनाई। लेकिन इसी मैच में कोलकाता के एक खिलाड़ी ने ऐसी गलती कर दी जिसके कारण उन पर बीसीसीआई ने भारी-भरकम जुर्माना ठोक दिया है। ये खिलाड़ी हैं कोलकाता के बल्लेबाज रमनदीप सिंह।

रमनदीप ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया था। रमनदीप ने आठ गेंदों पर एक छक्के और एक चौके की मदद से 17 रनों की पारी खेल कोलकाता का स्कोर 157 तक पहुंचाया था। बारिश के कारण ये मैच 16 ओवर प्रति पारी किया गया था। रमनदीप पर मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना लगाया गया है। उन्हें आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। रमनदीप ने अनुच्छेद 2.20 का उल्लंघन किया जिसमें वो सभी का व्यवहार शामिल है जो खेल भावना के खिलाफ होता है। इसी कारण रमनदीप को अपनी मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माने के तौर पर देना होगा जो निश्चित तौर पर लाखों में होगा। अच्छी बात ये है कि रमनदीप पर किसी तरह का बैन नहीं लगाया गया है।

आतंकवादियों ने किया पुलिस पर हमला, 7 सुरक्षाकर्मियों की मौत

पेशावर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों पर दो अलग-अलग आतंकवादी हमलों में कम से कम सात सुरक्षाकर्मियों मारे गए और दो घायल हो गए। आतंकवादियों ने रविवार को यह जानकारी दी। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि पहले हमले के दौरान पांच सुरक्षाकर्मियों मारे गए और दो घायल हो गए। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि यह आतंकवादी हमला अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तरी वजीरिस्तान जिले के हसन खेल इलाके में हुआ था, जब शनिवार को एक बम निरोधक इकाई को निशाना बनाकर एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण विस्फोट किया गया था। 'डॉन न्यूज' ने अधिकारी के हवाले से बताया कि विस्फोट शुरू होने के तुरंत बाद आतंकवादियों ने बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य घटना में आतंकवादियों ने शनिवार को उसी जिले के सीमाना इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें दो सुरक्षाकर्मियों मारे गए। उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मियों के शवों और घायलों को हवाई मार्ग से बन्नू के संयुक्त सैन्य अस्पताल ले जाया गया। हमलों के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाकों की घेराबंदी कर दी और इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

चेन्नई ने राजस्थान को पांच विकेट से हराया, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 42 रन बनाकर नाबाद रहे

चेन्नई सुपर किंग्स ने प्लेऑफ की ओर बढ़ाए कदम, राजस्थान का इंतजार बढ़ा

चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने अपने होम ग्राउंड चेर्पोक पर राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट से हराकर प्लेऑफ की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, जबकि राजस्थान को एक और हार का सामना करना पड़ा जिससे उसका नॉकआउट में पहुंचने का इंतजार बढ़ गया। राजस्थान की यह लगातार तीसरी हार है।

राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रियान पराग के 35 गेंदों पर नाबाद 47 रनों की पारी के दम पर 20 ओवर में पांच विकेट पर 141 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई ने 18.2 ओवर में पांच विकेट पर 145 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। चेन्नई के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 41 गेंदों पर नाबाद 42 रनों की पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। राजस्थान की ओर से है, जबकि राजस्थान की टीम 12

मैचों में आठ जीत और चार हार के साथ 16 अंक लेकर दूसरे स्थान पर बनी हुई है।

ऋतुराज ने खेली कप्तानी पारी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई को रचिन खोद्दर और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सभी हूई शुरुआत दिलाई। ऋतुराज की तुलना में ज्यादातर स्ट्राइक रचिन ने अपने पास रखी और तेजी से रन बनाना शुरू किया। रचिन इस मैच में अलग लय में नजर आ रहे थे, लेकिन अनुभवी स्पिनर अश्विन ने पावरप्ले के दौरान ही अपनी ही गेंद पर रचिन को आउट कर चेन्नई को पहला झटका दिया। रचिन 18 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद डेरिल मिचेल ने भी तेजी से खेला शुरू किया, लेकिन युजवेंद्र चहल ने प्लेबोइडल्स आउट कर चेन्नई को झटका दिया।

आपातकालीन जरूरतों के लिए खुला रहेगा न्यूयॉर्क का भारतीय दूतावास

नई दिल्ली। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए खुदियों पर भी खुला रहने की घोषणा की। 10 मई से खुदियों के दौरान दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक खुलेगा। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हालांकि इस दौरान कोई नियमित कार्य सेवाएं नहीं दी जाएंगी। न्यूयॉर्क में रह रहे भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए खुदियों के दौरान भी दूतावास खुला रहेगा। दूतावास को न्यूयॉर्क के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने कार्यालय खुदियों के दौरान खोलने की जानकारी दी। लेकिन यह सिर्फ आपातकालीन कार्यों के लिए ही खुला रहेगा। 10 मई से सभी खुदियों के दिन दूतावास दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक खुला रहेगा। लेकिन यह सिर्फ आपातकालीन सेवाओं के लिए ही होगा। इसके लिए उन्होंने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। +1-917-815-7066 पर कॉल कर आवश्यक मदद ले सकते हैं। इसका मकसद उनका कार्यों को करना है, जिन्हें अगले दिन के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है। इस दौरान आपातकालीन वीजा, आपातकालीन प्रमाणपत्र और उसी दिन भेजे जाने वाले किसी के पश्चिम शरीर के परिवहन के यात्रा दस्तावेज आदि को शामिल किया गया है। वाणिज्यिक दूतावास ने बताया कि आपातकालीन वीजा के लिए आपातकालीन सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा।

टी-20 विश्व कप: पावरप्ले में इन गेंदबाजों ने झटके हैं सबसे ज्यादा विकेट

नईदिल्ली। टी-20 विश्व कप 2024 का आगाज 1 जून से होने जा रहा है। इसका आयोजन वेस्टइंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में होगा। वेस्टइंडीज की पिच काफी भीमी होती है और इसके चलते वहां गेंदबाजों को काफी मदद मिलने वाली है। इस दौरान गेंदबाजी करने वाली टीम पावरप्ले में ज्यादा से ज्यादा विकेट निकालने की सोचेंगी। आइए उन गेंदबाजों के बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने टी-20 विश्व कप के पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज सैमुअल बर्दी ने टी-20 विश्व कप के दौरान पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। साल 2012 से 2016 तक के विश्व कप में बर्दी ने हिस्सा लिया और 13.58 की उमदा औसत के साथ 24 विकेट झटके। इन 24 विकेटों में 12 विकेट तो उन्होंने पावरप्ले के दौरान ही चटाए हैं। पहले 6 ओवर में इस खिलाड़ी की औसत 16.58 और उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 5.37 की रही है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट टी-20

आस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। पावरप्ले के दौरान इस खिलाड़ी ने 13 पारियों में 10 विकेट झटके हैं। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज की औसत 18.60 की रही है। पहले 6 ओवरों में इस खिलाड़ी ने 6.41 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी का पूरा प्रदर्शन देखें तो हेजलवुड ने 13 मैच में 21.35 की औसत से 13 विकेट झटके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी टी-20 विश्व कप में पावरप्ले के दौरान शानदार गेंदबाजी करते आए हैं। पहले 6 ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में चौथे स्थान पर हैं।

दीक्षा ने लॉस एंजेलिस में 1500 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा

नईदिल्ली, 12 मई। मध्य प्रदेश की ट्रेक एथलीट केएम दीक्षा ने लॉस एंजेलिस में साउंड रनिंग ट्रेक फेस्टिवल में महिलाओं की 1500 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। 25 वर्षीय भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्फिडेंसल टूर कांस्य स्पर्धा में 4:04.78 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने वारंगल में 2021 राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हर्मिलन बैस द्वारा निर्धारित 4:05.39 के

पिछले रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) के अनुसार दीक्षा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अनुसमकरी के अधीन है। लॉस एंजेलिस में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में, स्टार डिस्टेंस धावक अविनाश साबले अपने राष्ट्रीय 5,000 मीटर ट्रैक रिकॉर्ड में सुधार करने से चूक गए और 13.20.37 का समय लेकर दूसरे स्थान पर रहे।


प्रथम पेज का शेष

राज्य का दौरा करने और याद करने से लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री पटनायक ने कहा, भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद तथा लोगों के प्यार और श्रद्धा से बीजद लगातार छठी बार राज्य में सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर अफसोस जताया कि राज्य सरकार के कई ज्ञापनों के बावजूद केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कोयले की रॉयल्टी नहीं बढ़ायी है। उन्होंने कहा, आपने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये मंजूर किये थे, लेकिन उडुपी भाषा के लिए फंड जारी करने की जल्दमत्त नहीं उठाया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि उन्होंने दो बार केंद्र से ओडिशी संगीत को शास्त्रीय दर्जा देने का अनुरोध किया था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। श्री पटनायक ने निराशा व्यक्त की कि राज्य के कई बहादुर बेटों के बावजूद, प्रधानमंत्री ने उनमें से किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया है, यहां तक ??कि वह श्री बीजू पटनायक को भी यह सम्मान देना भूल गये हैं।

पीओके भारत का हिस्सा है... तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने कश्मीर में धारा 370 को अपने बच्चों की तरह रखा। आपने मोदी जी को दूसरे कार्यकाल के लिए पीएम बनाया। 5 अप्रैल, 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, आतंकवाद को खत्म किया गया और मोदी जी ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। गृह मंत्री ने कहा कि दो शहजदा हैं, अखिलेश और राहुल, जो सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 वापस लाने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा, केंद्रों के लोगों को तय करना चाहिए कि अनुच्छेद 370 वापस आना चाहिए या नहीं? मोदी जी ने देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया और उन्होंने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा, 70 साल तक सपा, बसपा और कांग्रेस के लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे को उठे बरसे में खले रखा। जब मोदी जी दूसरी बार पीएम बने तो मुकदमा जीत लिया गया। भूमि पूजन किया गया और पांच साल के अंदर 22 जनवरी को जय श्री राम के साथ प्राण-प्रतिष्ठा समारोह संपन्न किया गया। श्री शाह ने कहा कि प्रतिष्ठा समारोह के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डिंपल यादव और अखिलेश यादव समेत सभी को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन इनमें से कोई भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए क्योंकि वे अपने वोट बैंक से डर गए थे। हम भाजपा के लोग वोट बैंक से नहीं डरते हैं। केवल राम मंदिर ही नहीं, मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ के दरवार का भी कायाकल्प किया, जिसे औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था। सोमनाथ मंदिर है सोने से बना है, मोदी जी आस्था के सभी केंद्रों को सजा रहे हैं।

लुट, पापा राव जैसे बड़े नक्सलियों की थी मौजूदगी- पीडिया के जंगल में प्रतिबंधित भाकपा माओवादिियों के 150 से अधिक नक्सलियों की मौजूदगी थी, जो कि टीसीओसी मनाने के लिए वहां उपस्थित हुए थे, इनमें पीएलजीए की तीन कंपनियों के पदाधिकारियों सहित पश्चिम बस्तर डिवीजन के लंगू, पापा राव, दरभा डिवीजन के चैतू, पीएलजीए कंपनी नम्बर 02 के कमांडर वेज्जा, गंगलूर एरिया कमेटी सचिव दिनेशा मोडियम प्रमुख रूप से मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यह सभी भागने में कामयाब रहे। मिलिट्री कंपनी दो के बुधु ओयम एम केमलू पूजम पर 8-8लाख का इनाम

Table with Jyotish Chamtakar (13 May 2024) data, including Kalyan, Rajdhani, and various astrological charts.



प्रचंड गर्मी हर दिन हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है. ऐसे में इस भयानक स्थिति से खुद को राहत दिलाने और सहनीय बनाने के कई तरीकों में से एक है सही डाइट लेना. जी हाँ, हम आपको कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट रेसिपी

वीकेंड में बनाएं यह नाश्ता, गर्मी में रखेगा कूल और पेट कर देगा एकदम फुल


इस प्रचंड गर्मी में शरीर को राहत देना है, तो सही डाइट लेना बेहद जरूरी है. यहां कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट डिशों के बारे में बताया गया है, जिसे खाते हुए आप वीकेंड का आनंद ले सकते हैं साथ शरीर भी ठंडा रहेगा.

के बारे में बताने जा रहे हैं, जो गर्मी के मौसम में आपको अंदर से कूल भी रखेंगे और आपका पेट फुल भी अंकुरित मूंग सलाद- मूंग दाल के स्प्राउट्स प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. आम के साथ मिश्रित होने पर, इन सलादों को एक बिल्कुल नया स्वादिष्ट स्वाद मिलता है.

सत् पराठा और दही- सत् पराठा और दही बिहर का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे गर्मियों में खूब पसंद किया जाता है. हालांकि, इसे बनाते वक्त ध्यान रखें

कि यह बहुत अधिक चिकने न हों. कृनोआ पैनकेक- पैनकेक किसी भी नाश्ते को तुरंत स्वादिष्ट बना देते हैं और इन्हें घर पर बनाना भी आसान है. यह डिश कृनोआ और स्ट्रॉबेरी के गुणों से भरपूर है.

बेसन चिन्ना- बेसन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और इससे बनने वाला चीला उत्तर भारत के सबसे पसंदीदा नाश्ते में से एक है. आप चीले को पनीर और चटनी के साथ मिक्स कर सकते हैं.



तरबूज और स्ट्रॉबेरी स्मूदी- स्वादिष्ट स्मूदी बनाने के लिए तरबूज और स्ट्रॉबेरी एक साथ आते हैं. यह स्मूदी इतनी गाढ़ी और स्वादिष्ट है कि आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा.

गर्मियों में जरूर खाएं सलाद, इन सलाद रेसिपीज को एक बार जरूर करें ट्राई



गर्मियों में सलाद खाना सेहतमंद आदत है. इसे बनाने के कई तरीके हैं. हम आपके लिए गर्मियों में खाने लायक कई तरह की स्पेशल सलाद रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए. गर्मियों में स्मार्ट रहने का मतलब है एनर्जेटिक और रिफ्रेश फील करना और इसके लिए आपको अंदर से हाइड्रेटेड रहना जरूरी है. यहां आपके लिए 5 तरह के टेस्टी समर सलाद के बारे में बताया गया है, जिसे आप गर्मियों में आराम से खा सकते हैं. गर्मियों में स्मार्ट रहने का मतलब है एनर्जेटिक और रिफ्रेश फील करना और इसके लिए आपको अंदर से हाइड्रेटेड रहना जरूरी है. यहां आपके लिए 5 तरह के टेस्टी समर सलाद के बारे में बताया गया है, जिसे आप गर्मियों में आराम से खा सकते हैं. भारतीय क्वचुम्बर सलाद- यह ताजा सलाद बारीक कटा हुआ खीरा, टमाटर, प्याज, हरा पनीर, पुदीना की पत्तियां, नींबू का रस

और गुलाबी नमक मिलाकर तैयार किया जाता है. एशियाई खीरा सलाद- पतले कटे खीरे को अदरक, लहसुन, चावल के सिरके, सोया सॉस, तिल का तेल, मैपल सिरप और थुने हुए तिल के साथ मिलाएं. बस यह खाने के लिए तैयार है. ट्राॅपिकल चिकन सलाद- इस स्वादिष्ट सलाद में पके हुए चिकन के टुकड़े, ग्रीक योगर्ट, अनानास, बादाम, हरी प्याज, नमक और काली मिर्च शामिल करें. तरबूज बाल्सामिक सिरप सलाद- चाशनी के लिए बाल्सामिक सिरका को चीनी के साथ पकाएं. इसे तरबूज के टुकड़ों और फेंटा चीज़ के ऊपर डालें. ड्रेसिंग के लिए नींबू का रस और जैतून का तेल मिलाएं. आम और एवोकैडो सलाद- क्रांच के लिए ताजे आम के टुकड़ों को एवोकैडो के साथ कुछ प्याज और सलाद के साथ मिलाएं. साथ में जैतून का तेल, नींबू का रस और काली मिर्च डालें.

गर्मियों में बच्चों को खिलाएं फ्रूट सैंडविच, सफाचट कर जाएंगे टिफिन

फल खाना सभी उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है. लेकिन कई बार बच्चे इन्हें खाने में नखरे करते हैं. इसके लिए हम आपको कुछ टेस्टी रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को फल खिला सकेंगे.

आपने वेज से लेकर नॉनवेज तक हर तरह की सैंडविच रेसिपी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी फ्रूट सैंडविच के बारे में सुना है? यह स्वादिष्ट सैंडविच केला, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी जैसे फलों से बनाया जाता है. अगर आपके घर में बच्चे हैं जो खाने में नखरे करते हैं, तो आप उन्हें यह रेसिपी परोस सकते हैं और यह उन्हें निश्चित रूप से पसंद आएगी. आप इस रेसिपी को नाश्ते, रात के खाने और यहां तक कि शाम के नाश्ते के रूप में भी परोस सकते हैं. सैंडविच को अपने स्वाद के अनुसार बनाने के लिए अपनी पसंद के फल डालें. इतना ही नहीं आप अपनी पसंद का जैम पलेवर ब्रेड पर स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे अनानास जैम, मैंगो जैम वगैरह. अगर आप फलों को स्वादिष्ट तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह अनोखी सैंडविच



रेसिपी आपकी मदद करेगी. इस रेसिपी को जरूर आजमाएं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में कुछ स्वादिष्ट और हेल्दी खिलाएं. **फ्रूट सैंडविच के लिए इंग्रीडिएंट**
2 ब्रेड स्लाइस
2 मध्यम स्ट्रॉबेरी
1 बड़ा चम्मच मिक्सड फ्रूट जैम
1 बड़ा चम्मच मक्खन
1/4 केला
4 ब्लूबेरी
1 चुटकी नमक
फ्रूट सैंडविच कैसे बनायें?
स्टेप 1 मक्खन और जैम फैलाएं



दो ब्रेड स्लाइस लें और एक पर जैम और दूसरे पर मक्खन लगाएं. अब फलों को जितना संभव हो उतना पतला काट लें और एक ब्रेड स्लाइस पर अच्छी तरह फैला दें. स्वाद को संतुलित करने के लिए चुटकी भर नमक छिड़कें. इसे दूसरी ब्रेड स्लाइस से ढक दें. आपका फ्रूट सैंडविच परोसने के लिए तैयार है. बच्चों को लंच बॉक्स में सर्व करने के लिए इन्हें बीच में से हाफ कट कर दें, साथ में कुछ फल रख दें.

गर्मियों में तैयार करें रिफ्रेशिंग स्ट्रॉबेरी लेमोनेड

गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, ऐसे में खाने से ज्यादा कुछ ठंडा पीने की डिमांड बढ़ जाती है. इसके लिए आप स्ट्रॉबेरी लेमोनेड बना सकते हैं, जो कि एक त्वरित और आसानी से बनने वाली ड्रिंक रेसिपी है, जिसे आप अपने मेहमानों के लिए शूटपट तैयार कर सकते हैं. तो आइये शुरू करते हैं स्ट्रॉबेरी लेमोनेड बनाना. **स्ट्रॉबेरी लेमोनेड के लिए इंग्रीडिएंट**
10 बड़ी स्ट्रॉबेरी
6 कप ठंडा पानी
6 बर्फ के टुकड़े
1 1/2 कप नींबू का रस
3/4 कप चीनी
2 टहनी पुदीने की पत्तियां
स्ट्रॉबेरी लेमोनेड पानी कैसे बनायें?
स्टेप 1- एक ब्लेंडर जार में स्ट्रॉबेरी को 3 बड़े चम्मच चीनी के साथ ब्लेंड करें (मिश्रण के लिए 2 स्ट्रॉबेरी छोड़ें).
स्टेप 2- ब्लेंडर में 1/2 कप पानी डालें और स्ट्रॉबेरी को फिर से तब तक ब्लेंड करें जब तक आपको रस न दिखने लगे.
स्टेप 3- इस स्ट्रॉबेरी के रस को एक जग में बची हुई चीनी, नींबू का रस और ठंडे पानी के साथ मिला लें.
स्टेप 4- इसे तब तक अच्छी तरह हिलाएं जब तक सारा रस अच्छी तरह मिल न जाए.
स्टेप 5- गिलासों में बर्फ के टुकड़े डालें और स्ट्रॉबेरी नींबू पानी डालें. फिर इसमें कटी हुई स्ट्रॉबेरी डालें और पुदीने की पत्तियों से गार्निश करें.
स्टेप 6- तुरंत परोसें और फलों के स्वाद का आनंद लें.

गर्मियों में पी रहे हैं इस तरह के ड्रिंक्स, तो हो जाएं थोड़ा सावधान



गर्मी के दौरान हम खाने से ज्यादा कुछ ठंडा और हेल्दी पीने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि कुछ ड्रिंक्स ऐसे हैं, जो हाइड्रेट रखने के बजाय शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं. पैकेज्ड नारियल पानी एक तरफ जहां ताजा नारियल पानी फायदों से भरपूर है, वहीं, दूसरी तरफ पैकेज्ड नारियल पानी उतना ही हानिकारक है, जिसे खाने से बचना चाहिए. क्योंकि इनमें चीनी और सोडियम की मात्रा होती है जो शरीर में पानी के स्तर को कम कर सकता है. स्मूथीज कहा जाता है कि मिठास, पलेवर्ड दही या जूस के रूप में एक्स्ट्रा चीनी से भरपूर हाई-प्रोटीन स्मूदी में डिहाइड्रेट करने वाले प्रभाव होते हैं. गहरे रंग का यूरिन और अस्पष्ट थकान डिहाइड्रेशन के संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए. एनर्जी ड्रिंक पैकेज्ड एनर्जी ड्रिंक्स में काफी ज्यादा मात्रा में कैफीन, चीनी और अन्य एनर्जेटिक पदार्थ होते हैं,

जो शरीर को निर्जलित बनाते हैं. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक और स्पार्कलिंग वॉटर जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए. इन ड्रिंक्स के अत्यधिक सेवन से सूजन हो सकती है और शरीर भी डिहाइड्रेट हो सकता है. चीनी युक्त ड्रिंक्स गर्मियों के महीनों के दौरान आमतौर पर पैक किए गए फ्रूट जूस और सोडा का अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है, जिससे शरीर के टिश्यू से पानी निकल जाता है और यह डिहाइड्रेशन को बढ़ावा देता है. कैफीन चाय और कॉफी जैसे ड्रिंक्स भी डिहाइड्रेशन का कारण बन सकते हैं. जबकि कैफीन हल्के डेहाइड्रेटिक के रूप में काम करता है, लेकिन फिर भी यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जिससे डिहाइड्रेशन होता है. शराब कहा जाता है कि शराब में डेहाइड्रेटिक इफेक्ट होता है, जिसका मतलब है कि वे यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जो डिहाइड्रेशन का कारण बन सकते हैं.

बदलते मौसम



में खाएं ये ईजी डाइजेस्टिव फूड्स, बनाने में भी कोई झंझट नहीं

बदलता मौसम आंतों के स्वास्थ्य पर काफी गहरा असर डालता है, जिससे शरीर का पूरा फंक्शन अस्त-व्यस्त हो जाता है. इसीलिए कहा जाता है कि मौसम परिवर्तन में ऐसे फूड आइटम्स खाने चाहिए, जो आसानी से पच जाते हैं. यहां कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताया गया है, जो आसानी से पच जाते हैं और आप इन्हें अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

दही- यह एक कम फाइबर वाला प्रोबायोटिक फूड आइटम है, जो फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी2 और विटामिन बी12 का भी अच्छा स्रोत है. यह उच्च जैविक मूल्य वाले प्रोटीन और आवश्यक फैटी एसिड भी देता है. दलिया- ऐसा कहा जाता है कि वे अविश्वसनीय रूप से पौष्टिक होते हैं और एंटीऑक्सिडेंट, यूलनशील फाइबर और विटामिन से भरपूर होते हैं, जो पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और रक्त

शर्करा में भी सुधार करने में मदद करते हैं. शकरकंद- शकरकंद डाइटी फाइबर से भरपूर होता है और पेट के स्वास्थ्य और पाचन में सुधार के लिए भी जाना जाता है. शकरकंद में मौजूद हाई फाइबर इंग्रीडिएंट्स कब्ज को रोकने में भी मदद कर सकती है, और इसमें ज्यादा मात्रा में फाइस्टोस्टैरोल भी होता है, जो पाचन तंत्र पर सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है. केले- पके केले में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो वजन घटाने को बढ़ावा देता है और आंत को स्वस्थ रखता है. इतना ही नहीं

केला कब्ज और दस्त जैसी समस्याओं में मददगार हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, पके हुए केले पचने में आसान होते हैं और इसके कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं. सफेद चावल- संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग (यूएसडीए) के अनुसार, सफेद चावल पचाने में आसान होता है और इसे एथलीटों के लिए सेफ स्टार्च माना जाता है क्योंकि यह ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का एक आसान स्रोत है. यह विटामिन और खनिजों से भी भरपूर है.

देश की पहली रहस्यमयी मंडीप खोल गुफा में साल में सिर्फ 1 बार खुलता है द्वार, एक ही नदी को 16 बार पार कर पहुंचते हैं श्रद्धालु

राजनांदगांव(दावा)। खैरागढ़-छुईखदान, गंडई जिले में स्थित मंडीप खोल गुफा 13 मई सोमवार को सैलानियों के लिए खुलेगी। शुक्रवार को अक्षय तृतीया मनाने के ठीक 3 दिन बाद कल सोमवार को गुफा का द्वार आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। वहीं हर साल गुफा में जाने के लिए लोगों को भारी भीड़ रहती है।

साल में केवल एक बार खुलता है गुफा

साल में केवल एक बार अक्षय तृतीया के बाद आने वाले प्रथम सोमवार को यह गुफा खुलता है। दूर-दराज के सैकड़ों सैलानियों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। हर साल राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के पर्यटक भी बड़ी संख्या में गुफा का रहस्य और रोमांच का आनंद लेने पहुंचते हैं। कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया था। अनुसंधान में पाया गया कि यह गुफा देश का पहला एवं एशिया का दूसरी सबसे लंबी गुफा है तथा गुफा में इतिहास के काफी रहस्य छिपे हुए हैं पर अब तक इसका विस्तृत



अनुसंधान होना शेष है।

पूजा-अर्चना के बाद खुलता है गुफा का द्वार

वनांचल स्थित मंदिर मंडीपखोल गुफा ठाकुर टोला जमींदारी के अंतर्गत आता है। परंपरा अनुसार यहां के राजा या उनके परिवार के सदस्य गुफा का द्वार खोलने से पहले देवी-देवताओं का स्मरण कर पूजा-अर्चना कर

गुफा का द्वार खोलते हैं। द्वार के चढ़ाने को हटाने से पहले हवाई फायर भी किया जाता है ताकि कोई जंगली जानवर गुफा में हो तो यहां से निकल जाए। गुफा में सबसे पहले प्रवेश जमींदार के परिवार के लोग करते हैं तथा गुफा में स्थित शिवलिंग सहित अन्य देवी-देवताओं का विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हैं।

सोलह बार नदी पार करना पड़ेगा

मैकाल पर्वत श्रृंखला में स्थित मंडीपखोल गुफा तक पहुंचने का सफर काफी रोमांचक है। पर्यटकों के लिए यह सफर किसी रोमांचकारी से काम नहीं है। गुफा तक पहुंचने के लिए कोई रस्ता नहीं है। पैलेटाटा ठाकुरटोला के बाद का रास्ता कहीं मैदान तो कहीं पहाड़ और पहाड़ के उबड़-खाबड़ रास्ते से होकर यहां तक पहुंचा जाता है। यहां पहुंचने के लिए सबसे खास बात यह है कि एक ही नदी को अलग-अलग जगह पर 16 बार पार करना पड़ता है। जंगल के विभिन्न किस्म के वृक्ष एवं चट्टानी मार्ग से गुजर कर यहां पहुंचा जाता है।

यहां श्वेत गंगा के नाम से है कुंड

इस रहस्यमयी गुफा के अंदर श्वेत गंगा नाम का कुंड है जिसमें नहाने से सारे कुछ रोग दूर हो जाते हैं। श्वेत गंगा नामक कुंड में नहा कर ही गुफा में प्रवेश कर शिवलिंग का दर्शन किया जाता है। श्वेत गंगा कुंड में डुबकी लगाने के लिए लोगों की कतार लगी रहती है। बताया जाता है कि इस कुंड में साल भर पानी निकलते रहता है। इस रहस्यमय गुफा की मुख्य खास बात है कि पूरे साल भर में केवल अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार को ही या गुफा खुलता है। इस रहस्यमयी गुफा में शिवलिंग की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पूरे रास्ते भर लोगों की भीड़ लगी रहती है। इसको लेकर सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहते हैं। मंडीपखोल गुफा को काफी रहस्य है। भीषण गर्मी में भी गुफा के अंदर शीतलता बनी रहती है। गुफा के अंदर का मार्ग संकरा तो कहीं चढ़ाव तो कहीं पर मैदान है। गुफा के अंदर काफी अंधेरा रहता है। स्थानीय सेवा समिति द्वारा गुफा के अंदर कुछ दूरी तक रोशनी की व्यवस्था की जाती है। आगे जाने के लिए शैलानी अपने वैकल्पिक व्यवस्था का उपयोग करते हैं। रोशनी पढ़ने पर चट्टान टिमटिमाने लगते हैं। गुफा का अंदर जगह-जगह देवी, देवता, अप्सरा, जीव जंतु की अकृति भी उभरी हुई है। अंदर जाने वाले को शाम होने से पहले बाहर आना होता है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी बोले- देश छोड़कर भागने की फिराक में हैं सीजीपीएससी घोटाले के आरोपी, जांच से घबराये

रायपुर। सीजीपीएससी घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। उसने छत्तीसगढ़ के युवा भाई-बहनों के साथ धोखा किया है। बीजेपी ने सरकार बनते ही मामले में सीबीआई से जांच करने का निर्णय लिया था। जांच की प्रक्रिया चल रही है। इससे कई लोग घबराए हुए हैं और देश छोड़ने की फिराक में हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस में भद्रदूध मची हुई है।



वित्त मंत्री ओपी चौधरी (बाएं) और राज्य सरकार के वित्त सचिव (दाएं) की बैठक।

उन्होंने कहा कि इस घोटाले के लिए जो जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाब देना होगा। कैबिनेट में बदलाव को लेकर कांग्रेस के बयान पर कहा कि कांग्रेस डबूती हुई नाव है। विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने में भी कामयाब नहीं है। बीजेपी को अंधे पद नहीं, दायित्व होता है। कांग्रेस के पांच सालों में जय-वीरू में नहीं

बन पाई। ऐसे में दूसरों पर सवाल उठाने हथ्यास्पद है।

ऑडिशा दौरे को लेकर का कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी संगठन के निर्देश के अनुसार कार्य करती है। छत्तीसगढ़ में अलग-अलग लोकसभा सीटों को लेकर परिश्रम किया गया है। अब ओडिशा में संगठन के निर्देश पर जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे पूरा करने का टारगेट है।

इससे पहले पिछले दिनों उन्होंने रजिस्ट्री को लेकर कहा कि पंजीयन कार्यालय को दलालों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए अफसरों को निर्देश दिया गया है। अफसरों को रजिस्ट्री के लिए ऐसा साफ्टवेयर बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे आम आदमी के बिना रजिस्ट्री कार्यालय आए रजिस्ट्री हो जाए। मंत्री के निर्देश के बाद अब पंजीयन विभाग के सचिव और महानिरीक्षक एक्शन मोड में हैं।

राजनांदगांव में भूपेश सहित प्रदेश की सभी 11 सीट में होगी कांग्रेस की हार - मधुसूदन

राजनांदगांव (दावा)। पूर्व सांसद एवं छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीट के लिए भाजपा द्वारा बनाए गए स्टार प्रचारक मधुसूदन यादव ने देश में जारी लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि एक बार फिर हिंदुस्तान में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की भी सभी 11 सीट भाजपा जीतेगी।



मधुसूदन यादव

राजनांदगांव सहित कोरबा और बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी के लिए प्रचार कर लौटे पूर्व सांसद श्री यादव ने कहा कि प्रदेश के हर हिस्से में मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन की चर्चा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल से जनता त्रस्त हो गई थी और मतदाता ये भी समझते हैं कि इस समय देश में एक मजबूत सरकार को जरूरत है जो केवल मोदीजी के नेतृत्व में भाजपा ही दे सकती है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में आती है वहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करती है, यही कारण है कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देशभर में कांग्रेस का लगातार पतन हो रहा है। श्री यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीट में कमल खिलने के बाद दो गुनी रफ्तार से विकास संभव हो पाएगा। गरीबों को मकान, युवाओं को बेहतर भविष्य के मौके, महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, प्रति महीने एक हजार रुपये, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देने का काम भाजपा ने किया है और आगे करते रहेगी।

निश्चित तौर पर जीत होने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने सीएम रहते हुए जिले के साथ भेदभाव किया गया। यहां से विभागों के कार्यालयों को दुर्ग शिफ्ट करने का काम किया, यही कारण रहा कि जनता ने उन्हें नकार कर भाजपा को अपना समर्थन दिया है और नांदगांव से हारने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी को दोबारा यहां आने की सोचेंगे भी नहीं।

लोगों में दिखा उत्साह

राजनांदगांव लोकसभा में भाजपा चुनाव संचालक की भूमिका निभाने के बाद पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने बिलासपुर प्रत्याशी तोखन साहू और कोरबा प्रत्याशी सरोज पंडेय के लिए भी उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार किया। श्री यादव ने कहा कि कोरबा और बिलासपुर में जहां-जहां भी उन्होंने सभाएं की लोगों से मिले हर स्थान में भाजपा को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि मोदीजी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, यही कारण है कि प्रदेश की सभी 11 सीट भाजपा जितने जा रही हैं।



ASHISH ANNEX साइयां शेरवानी कोर्ट शूट लाचा किड्स टियर KAMPHI LINE, RAJNANDGAON (C.G.)

रेलवे यात्री ध्यान दें; पर्याप्त पैसेंजर नहीं मिलने से यह ट्रेन रद्द की जा रही है, असुविधा के लिए खेद है

रायपुर। पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से जबलपुर-दुर्ग साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन कैसिल कर दी गई है। रेलवे का कहना है कि पर्याप्त यात्री नहीं मिलने से यह ट्रेन रद्द की जा रही है। 20 मई से 17 जून तक चलने वाली गाड़ी संख्या 01701 जबलपुर-दुर्ग साप्ताहिक समर स्पेशल और दुर्ग से 21 मई से 18 जून 2024 तक चलने वाली गाड़ी संख्या 01702 दुर्ग-जबलपुर साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन का रद्द कर दिया गया है। यह ट्रेन दोनों ओर से पांच फेरे के लिए चलने वाली थी।



जबलपुर-दुर्ग साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन का रद्द कर दिया गया है।

रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे असुविधा से बचने के लिए रेलवे के अधिकृत पृष्ठछाड़ सेवा एनटीईएस/रेल मदद 139 से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर यात्रा करें।

पुणे-बालेश्वर के बीच एक फेरे के लिए लैटिंग समर स्पेशल ट्रेन

वहीं समर के दौरान रेल यात्रियों की मांग और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पुणे एवं बालेश्वर के मध्य एक फेरे के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। 01451 पुणे-

बालेश्वर समर स्पेशल 18 मई को शनिवार को पुणे से रवाना होगी। इसी प्रकार विपरीत 01452 बालेश्वर-पुणे समर स्पेशल दिनांक 20 मई सोमवार को बालेश्वर से रवाना होगी। इस गाड़ी में कुल 22 कोच उपलब्ध रहेंगे।

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और बालेश्वर के बीच एक फेरे के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। इसके साथ ही 01055छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल-बालेश्वर समर स्पेशल दिनांक 18 मई को शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से रवाना होगी। इसी प्रकार विपरीत 01056 बालेश्वर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल समर स्पेशल दिनांक 20 मई सोमवार को बालेश्वर से रवाना होगी। इस गाड़ी में कुल 22 कोच उपलब्ध रहेंगे।

यातायात विभाग द्वारा नो पार्किंग में खड़े 96 वाहनों पर की कार्यवाही

वसूला गया	28800
रूपये का व जुर्माना	

वसूला गया 28800 रूपये का व जुर्माना

राजनांदगांव (दावा)। शहर में यातायात दुरुस्ती के छेड़े हुए अभियान के तहत रविवार को पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में यातायात अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी रश्मि निरीक्षक लोकेश कुमार कसेर, निरीक्षक, अजय खेस, नवरतन कर्यप, सर्वजित येनलाल चन्द्रकार, कुंजलाल साहू, कमल किशोर श्रीवास्तव, थानेश्वर प्रसाद बांधव एवं यातायात टीम द्वारा शहर के जय स्तंभ चौक, गुड्डाखू लाईन, जूनी हटरी, सिनेमा लाईन, आजाद चौक, मानव मंदिर चौक, फौजवा चौक, जलाराम स्वीट्स के सामने अव्यवस्थित नो पार्किंग में खड़े 96 वाहनों पर कार्यवाही कर 28,800 रुपये समन शुल्क वसूल किया गया। बताया जा रहा है कि यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। पुलिस द्वारा सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग करें। यातायात व्यवस्था बनाये रखने हेतु यातायात विभाग का सहयोग करें एवं असुविधा से बचें।



पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में यातायात अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी रश्मि निरीक्षक लोकेश कुमार कसेर, निरीक्षक, अजय खेस, नवरतन कर्यप, सर्वजित येनलाल चन्द्रकार, कुंजलाल साहू, कमल किशोर श्रीवास्तव, थानेश्वर प्रसाद बांधव एवं यातायात टीम द्वारा शहर के जय स्तंभ चौक, गुड्डाखू लाईन, जूनी हटरी, सिनेमा लाईन, आजाद चौक, मानव मंदिर चौक, फौजवा चौक, जलाराम स्वीट्स के सामने अव्यवस्थित नो पार्किंग में खड़े 96 वाहनों पर कार्यवाही कर 28,800 रुपये समन शुल्क वसूल किया गया।

फर्जी दस्तावेज से मुख्तयारनामा बनाकर जमीन का रजिस्ट्री कराने वाले फरार आरोपी गिरफ्तार

राजनांदगांव (दावा)। सिटी कोतवाली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर एवं फर्जी मुख्तयारनामा बनाकर धोखाधड़ी से जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें जेल की सीखचों के पीछे भेज दिया गया है। बताया जाता है कि एक मामले के दो आरोपी पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है। आरोपियों के नाम बिहारी लाल पिता स्व. मेहतर राम उम्र 58 वर्ष निवासी दमोदा थाना पुलगांव जिला दुर्ग व प्रेमलाल भाट पिता लिलक राम भाट उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम रजोली थाना रनचिरई जिला बालोद बताया जाता है।



को थाने में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका जमीन ग्राम तेलीटोला (टप्पा) पटवारी हल्का न0 19 तहसील लालबहादुर नगर जिला राजनांदगांव में खसरा न0 86/01 क्षेत्रफल 0.466 हेक्टेयर जो जीई रोड प्रार्थी समीर सचदेवा पिता भारतभूषण सचदेवा उम्र 53 साल स्थायी पता 86 नर्मदा रोड रतन कालोनी जबलपुर (म0प्र0) का दिनांक 04.02.2024

आफ अटार्नी देकर बिक्री किये हो जमीन बिक चुकी है। तब यह जबलपुर से आकर जानकारी लिया तो उक्त जमीन को अनावेदक प्रेमलाल भाट ग्राम रजोली जिला बालोद के द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर भूमि का फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति को खड़ा कर फर्जी मुख्तयारनामा तैयार कर क्रेता के पक्ष में उपपंजीयक कार्यालय राजनांदगांव को विक्रयनामा

निष्पादित करना पाया गया। जांच पर धारा 419,420,467,468,471,120-बी भादवि0 का अपराध घटित होना पाया जाने से थाना कोतवाली में धारा 419,420,467,468,471,120-बी भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के दिनांक 24.02.2024 को आरोपी नावेद अली

पिता नरेश सिंह उम्र 32 साल निवासी वार्ड न0 41 केलाबाड़ी मस्जिद के पीछे दुर्ग थाना पदमनाभपुर जिला दुर्ग तथा श्रवण कुमार साहू पिता स्व. जोहल राम साहू उम्र 39 साल निवासी सिकोसा ग्रामीण बैंक के सामने थाना गुण्डरदेही जिला बालोद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जो जिला जेल राजनांदगांव में निरूद्ध है।

फरार आरोपियों की तलाश थाना प्रभारी श्री साहू ने बताया कि फरार दो अन्य आरोपियों की लगातार पतासाजी की जा रही थी इस दौरान रविवार 12.मई को मुखबीर की सूचना पर आरोपी बिहारी लाल पिता स्व. मेहतर को ग्राम दमोदा जिला दुर्ग से एवं आरोपी प्रेमलाल भाट पिता लिलक राम को दुर्ग शहर से हिरासत में लेकर राजनांदगांव लाया गया, पृष्ठछाड़ में अपराध स्वीकार करने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय पेश किया गया, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया है। इस कार्यवाही में उनके स्वयं सहित उन निरीक्षक धनीराम नारी, संजय बरेट, सर्वजित येनलाल खान, प्रधान आरक्षक मिलन साहू, आरक्षक प्रदीप जायसवाल एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।